



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 2003 (फाल्गुन 3, 1924)  
[No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 2003 (PHALGUNA 3, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

### भाग I—खण्ड 4 [PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2003

सं० 103, दिनांक 16 जनवरी 03—राष्ट्रपति, वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, वय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री संजय शंकर का नाम वर्ष 2000 की अनुभाग अधिकारी प्रोड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उनको नियुक्ति 1 जनवरी, 2003 के पूर्वानुक्रम से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में स्थायी आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में करते हैं।

वी० सरस्वती  
अवर सचिव

भारतीय सैन्य अकादमी

सं० 104, दिनांक 20 जनवरी 03—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष श्री जी० डी० गोयल को वर्ष 1986 के रिक्त स्थान पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रधानाचार्य श्रेणी 'अ' राजपत्रित अधिकारी के पद पर दिनांक 12 अगस्त 2002 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करने हैं।

वी० ए० चव्हाण  
अपर सचिव

## थल सेना विभाग

सं० 105, दिनांक 22 जनवरी 03—थल सेना अनुदेश 37/78 तथा इसमें जारी संशोधन के अधीन राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

## नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

लैफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर

डी आर-10538 पं श तल आनन्द-09-11-2001

जे० एल० शर्मा

ले० जनरल डी जी डी एस

सं० 106, दिनांक 22 जनवरी, 2003—राष्ट्रपति यथा संशोधित सेना अनुदेश 3/एन/70 और अनुदेश 12/2001 के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

## नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनका 13 जनवरी 1999 से अल्पसेवा कमीशन छोड़ने पर यथासंशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3/5/70 के प्रावधानों के तहत 13 जनवरी 1999 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है परन्तु वेतन वृद्धियों के लिए तारीख 9 मार्च 91 होगी। सेना अनुदेश 12/2001 के प्रावधानों के तहत अपनी सेवा के सातवें वर्ष से स्थायी कमीशन पाने का विकल्प दिये जाने के कारण बैच को दी गई वरिष्ठता में से एक वर्ष की वरिष्ठता कम देने के बाद पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की तारीख 07 नवम्बर 92 होगी। तथापि स्थायी कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालिक सेवा कमीशन की मंजूरी को राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गई है।

सं० एस एस-34785 (अब आई सी-46911पी), जैल सिंह—ए ओ सी।

निम्नलिखित अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 13 जनवरी 1999 से अल्पसेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3/5/70 के प्रावधानों के तहत 13 जनवरी 99 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है परन्तु वेतन वृद्धियों के लिए तारीख 25 अगस्त 90 होगी। सेना अनुदेश 12/2001 के प्रावधानों के तहत अपनी सेवा के सातवें वर्ष में स्थायी कमीशन पाने का विकल्प दिये जाने के कारण बैच को दी गई वरिष्ठता में से एक वर्ष की वरिष्ठता कम कर देने के बाद पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की तारीख 23 अप्रैल 92 होगी तथापि स्थायी कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी परस्पर वरिष्ठता

वही रहेगी जो अल्पकालिक सेवा कमीशन की मंजूरी को राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गई है।

सं० एस एस-34518 (अब आई सी-46844पी), राजेन्द्र कुमार गुप्ता—आर्टी।

सं० एस एस-34678 (अब आई सी-46845 एक्स), रवीन्द्र सिंह मेहता—आर्टी।

सं० एस एस-34692 (अब आई सी-46846 ए), धर्मदेव यादव—ए एस सी।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 13 जनवरी 1999 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3/5/70 के प्रावधानों के तहत 13 जनवरी 1999 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है परन्तु वेतन वृद्धियों के लिए तारीख 26 अगस्त 1939 होगी। सेना अनुदेश 12/2001 के प्रावधानों के तहत अपनी सेवा के सातवें वर्ष में स्थायी कमीशन पाने का विकल्प दिये जाने के कारण बैच को दी गई वरिष्ठता में से एक वर्ष की वरिष्ठता कम कर देने के बाद पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की तारीख 24 अप्रैल 1991 होगी। तथापि स्थायी कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनका परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालिक सेवा कमीशन की मंजूरी को राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गई है।

सं० एस एस-34165 (अब आई सी 46562 डब्ल्यू), हरबेकश सिंह धर्म—इन्फ०।

सं० एस एस-34245 (अब आई सी 46563 वाई), प्रदीप कुमार सिंह—इन्फ०।

सं० एस एस-34267 (अब आई सी 46564 एफ), अजीत राय—ए एस सी।

ए के एस चौहान

कर्मल एम एस 7

सं० 107, दिनांक 21 जनवरी 2003—राष्ट्रपति सर्वर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्ति करते हैं :-

## (नियमित सेना)

अल्प सेवा आयोग

ले० के पद पर

निम्नलिखित अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग का छः मास का समय जो कि 02 मार्च 2002 से शुरू हुआ था, ले० के पद पर पूरा कर लिया है। उन को दिनांक 02 मार्च 02 से अल्प सेवा आयोग ले० के पद पर पांच वर्ष के लिए विशेष

सन नुदेश 3/5/98 संशोधित के अंतर्गत प्रदान किया जाता है :—

प्रेम सिंह विष्ट (39529 डब्ल्यू) आर्टी  
 पंकज मथानी (39530 एल) मैक  
 अश्वनी कुमार (39531 एन) आर्टी  
 प्रशांत ज्योति बामने (39532 डब्ल्यू) ए० सी०  
 अमित मेहता (39533 एम) इन्फैंट्री  
 जोरावर सिंह (39534 एफ) इन्फैंट्री  
 संजीव कुमार शर्मा (39535 के) ए०डी०ए०  
 सागर के एस गिल (39536 एम) ए०एस०सी०  
 परमबन्ध वितोद बालागोपालन (39537 पी) इन्फैंट्री  
 सुरेश कुमार पंडित (39538 एक्स) इन्जीनियर  
 लोगंजम जिमकीलो मीती (39539 ए) इन्फैंट्री  
 संदीप के थापा (39540 पी) ई०एम०ई०  
 आदित्य वाली (39541 एक्स) इन्फैंट्री  
 फर्नान्डिस जोहनी रोकी (39542 ए) इन्ट  
 निथिन हरिराम (39543 एस) इन्फैंट्री  
 चेतन वाई के (39544 एल) इन्जीनियर  
 अलग देशाई (39545 एन) इन्फैंट्री  
 दीपक बी शर्मा (39546 डब्ल्यू) ए ओ सी  
 अजय कुमार मिश्रा (39547 वाई) आर्टी  
 संदीप नागपाल (39548 एफ) आर्टी  
 अजित कुमार राजगुरु मिश्रा (39549 के) इन्फैंट्री  
 कौशिक तरुण महेश (39550 वाई) ए सी  
 अरुण देव सिंह जसरोरिया (39551 एफ) इन्फैंट्री  
 रमित चौहान (39552 के) सिगनल  
 विजेश थंकाचन (39553 एम) इन्फैंट्री  
 अद्यया एम ए (39555 एक्स) एडी ए  
 मृदल मिश्रा (39556 ए) इन्फैंट्री  
 मनजीत सांगवान (39557 एस) ए एस सी  
 विशाल सिंह सांगा (39558 एल) मैक  
 भैभव कौशिक (39559 एन) आर्टी  
 अकश कुमार (39560 एच) आर्टी  
 संदीप कुमार (39561 एल) इन्फैंट्री  
 आदित्य सिंह राथोर (39562 एन) ए सी  
 शिवन्दर प्रताप सिंह कंवर (39563 डब्ल्यू) इन्फैंट्री  
 अरधुर अगे फोनिग (39564 वाई) इन्फैंट्री  
 आनन्द (39565 एफ) ई एम ई

के सेनथोल कुमार (39566 के) आर्टी  
 भानू प्रताप सिंह (39567 एन) एओसी  
 प्रेम कुमार तोमर (39568 पी) सिगनल  
 धमनकर भूषेन्द्रा मनोहर (39569 एक्स) इन्फैंट्री  
 बजेन्द्रा सिंह बी शेखावत (39570 एम) ए सी  
 योगेश छबड़ा (39571 पी) इन्फैंट्री  
 सुमंजित विकास बाली (39572 एक्स) इन्जीनियर  
 सर्प दोरजी भूटिया (39573 ए) इन्फैंट्री  
 मरिद्रमोय दत्ता (39574 एच) आर्टी  
 कंडल गोनकर तपन सुशोल (39575 एल) सिगनल  
 पाटिल महेश मोहनराव (39577 डब्ल्यू) इन्फैंट्री  
 अमरिन्दर वरार (39578 वाई) एसी  
 प्रथा प्रीतम दत्ता (39579 एफ) इन्जीनियर  
 फुलसंगे परीमल ईश्वर लाल (39580 डब्ल्यू) आर्टी  
 विवेक चौदहरी (39581 वाई) आर्टी  
 जाधव सन्तोष कुमार रंगराव (39582 एफ) इन्फैंट्री  
 जाधव महेश वैषण (39583 के) एसी  
 करण वशिष्ट (39584 एम) इन्फैंट्री  
 रोहित चौहान (39585 पी) इन्फैंट्री  
 अरियम बघन (39586 एक्स) इन्फैंट्री  
 सिदारे पाटिल (39587 ए) इन्जीनियर  
 सुनील कुमार (39588 एच) मैक  
 संजीव कुमार डोगरा (39589 एल) एएससी  
 अनुराग रोरे (39590 ए) इन्फैंट्री  
 विरमानी मनु चन्दरमोहन (39591 एच) इन्फैंट्री  
 हेमन्त लोहन (39592 एल) आर्टी  
 पाटिल अशवीन सूर्याकान्त (39593 एन) इन्ट  
 जे सेलविन क्लेमेंट क्रिस्टोफर (39594 डब्ल्यू) इन्जीनियर  
 राजीव रंजन ठाकुर (39595 वाई) सिगनल  
 कार्तिक एम एन (39596 एफ) सिगनल  
 राम बाबू (39597 के) इन्फैंट्री  
 हरी भास्कर एम (39598 एम) आर्टी  
 कृष्णा कुमार चरण (39599 पी) आर्टी  
 आदर्श नायक (39600 वाई) इन्फैंट्री  
 इम्तियाल मन्सूरी (39601 एफ) एडीए  
 दिनेश सिंह भन्डारी (39602 के) ई०एम०ई०  
 सचिन शर्मा (39603 एम) एओसी  
 अमर दीप यादव (39604 पी) मैक

अभिषेक कुमार झा (39605 एक्स) ऐसी  
 प्रवीन दहिया (39606 ए) आर्टी  
 ब्रजेश थापा (39607 एच) इन्फैन्ट्री  
 गादा प्रवेश विशनजी (39608 एल) इन्फैन्ट्री  
 विकास खन्ना (39609 एन) आर्टी  
 जितिनंदर डूडी (39610 एच) एडीए  
 दिग्विजय सिंह शेखावत (39611 एल) ईएमई  
 मिश्रा राहुल बल (39612 एन) इन्फैन्ट्री  
 बिजू कृष्णनन (39613 डब्ल्यू) आर्टी  
 रमनदीप सन्धू (39614 वाई) ऐसी  
 सन्तोष कुमार सिंह (39615 एफ) इन्फैन्ट्री  
 डी सुरजकुमार डी एस राव (39616 के) आर्टी  
 विकास रामाचन्द्रा पाटिल (धड़े) (39617 एम) सिगनल  
 सुबीन जोसब (39618 पी) सिगनल  
 पवन कुमार यूनियाल (39619 एक्स) इन्फैन्ट्री  
 सुखवन्त सिंह डिडसा (39620 एम) इन्फैन्ट्री  
 रोहित सोलंकी (39621 पी) इन्फैन्ट्री  
 विश्वानाथ (39622 एक्स) इंजिनियर  
 बिरेन्द्रा कुमार पुष्कर (39623 ए) आर्टी  
 अगस्ताईन अन्थोनी मुथू (39624 एच) इन्फैन्ट्री  
 एन विनोद (39625 एल) इन्फैन्ट्री  
 आनंद कुमार सिंह (39626 एन) इन्फैन्ट्री  
 विक्रम सिंह बोरा (39627 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री  
 एम डी अनुवरुद्दीन शरीफ (39628 वाई) इन्फैन्ट्री  
 बादल कौशिक (39629 एफ) एडीए  
 शांतानू कृष्णा (39630 डब्ल्यू) आर्टी  
 एम बी विपिन (39631 वाई) एएससी  
 तपन सिंह तोमर (39632 एफ) मैक  
 रिपल बरूवा (39633 के) आर्टी  
 महेन्द्रा कुमार जोशी (39634 एम) एएससी  
 बिस्ट अभय भुवन चन्द्रा (39636 एक्स) एएससी  
 नीरज कुमार (39637 ए) इन्फैन्ट्री  
 सलील मोहन (39638 एच) —ए० डी० ए०।  
 डी० दीपक राज (39639 एल) इन्फैन्ट्री।  
 राजीव मेनन (39640 ए) इन्फैन्ट्री।  
 दीपू के (39641 एच) इन्फैन्ट्री।  
 शिवकुमार (39642 एल) —ई० एम० ई०।  
 गौरव रावत (39643 एन) इन्फैन्ट्री।

अभीजीत मिश्रा (39644 डब्ल्यू) —ई० एम० ई०।  
 अजय कुमार (39645 वाई) इन्फैन्ट्री।  
 राजेश गिरि (39646 एफ) इन्फैन्ट्री।  
 रे रतनदीप सिवामोय (39647 के) इन्फैन्ट्री।  
 दीप चन्द्रा मलकानी (39648 एम) —ए० डी० ए०।  
 मुकेश कुमार तनक (39649 पी) आर्टी।  
 पी० प्रभु राज (39650 के) आर्टी।  
 अजय सिंह (39651 एम) इन्फैन्ट्री।  
 थोन्बम दिजेन सिंह (39652 पी) इन्फैन्ट्री।  
 शिरिष शुक्ला (39653 एक्स) —ए० ग्री० सी०।  
 सुमीत तिवारी (39654 ए) इन्फैन्ट्री।  
 आशीष जिघन (39655 एच) इन्फैन्ट्री।  
 गौरव अरोड़ा (39656 एल) आर्टी।  
 अरपन चौधरी (39657 एन) इन्फैन्ट्री।  
 विक्रांत मनकोटिया (39658 डब्ल्यू) —ई० एम० ई०।  
 काकाफेम विनीत जोहनी (39659 वाई) —ए० डी० ए०।  
 बी० एम० करिष्पा (39660 एन) आर्टी।  
 रमेश कुमार (39661 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री।  
 कुनार शर्मा (39662 वाई) इन्फैन्ट्री।  
 मनतेज सिंह चीमा (39663 एफ) आर्टी।  
 पैशल मनोचा (39664 के) इन्फैन्ट्री।  
 विवेक आनन्द सिंह (39666 पी) इन्फैन्ट्री।  
 प्रशान्त झा (39667 एक्स) इन्फैन्ट्री।  
 आशीफ अब्बास (39668 ए) इन्फैन्ट्री।  
 मार्तन्ध मिश्रा (39669 एच) आर्टी।  
 दिनेश सिंह ठाकुर (39670 एक्स) इन्फैन्ट्री।  
 गजिनंदर सिंह शेखावत (39671 ए) इन्फैन्ट्री।  
 विनोद जोशी (39672 एच) इन्फैन्ट्री।  
 दिव्यामानी शुक्ला (39674 एन) इंजिनियर।  
 शैलन्द्रा सिंह शेखावत (39675 डब्ल्यू) —ए० सी०।  
 अनुराग शर्मा (39676 वाई) सिगनल।  
 आर० प्रशान्त कुमार वर्मा (39677 एफ) आर्टी।  
 सिद्धार्थ विरमानी (39678 के) सिगनल।  
 मान सिंह (39679 एम) इंजिनियर।  
 जेम्स थोमस (39680 एफ) इन्फैन्ट्री।  
 फकीर अब्बास (39681 के) —ए० सी०।  
 विश्वास पी (39682 एम) इंजिनियर।  
 मादेवन्द्रा सिंह (39683 पी) —ई० एम० ई०।

राकेश शर्मा 39684 एक्स—ए० डी० ए०  
 मायंक तिवारी 39685 ए—मैक० ।  
 संजीत एस० म्यानी 39686 एच०—इन्फैन्ट्री ।  
 देवेन्द्र सांगा 39687 एल०—आर्टी ।  
 मैबम लन्दन सिंह 39688 एन—इन्फैन्ट्री ।  
 विकास त्यागी 39690 एल०—ए० एस० सी० ।  
 अमोल सिंह धारीवाल 39691 एन—आर्टी ।  
 गगनदीप सिंह भल्ला 39692 डब्ल्यू०—इन्फैन्ट्री  
 आदित्य कपूर 39693 वाई०—ए० सी० ।  
 रंजीत एच० एस० 39695 के—इन्फैन्ट्री ।  
 सौरव विकास 39698 एक्स—इन्फैन्ट्री ।

एस० एस० धनखड़ ।  
 लै० कर्नल,  
 सह सेना सचिव 8 बी

नेवी ब्रांच

नौसेना मुख्यालय

सं० 108, दिनांक 17 जनवरी 2003—राष्ट्रपति संहर्ष श्री जे० एस० जोशी, संयुक्त निदेशक, को दिनांक 10-10-2002 से 02-04-2003 तक अथवा नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक के रूप में वेतनमान रु० 14300-400-18300/- में नियुक्त करते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती है।

सन्तोष दास गुप्ता  
 उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

वायु सेना मुख्यालय

सं० 109, दिनांक 17 जनवरी, 2003—राष्ट्रपति संहर्ष, निम्नलिखित सहायकों को, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 की धारा 7(8) के अधीन स्थाना-पन्न, अनुभाग अधिकारी (ग्रुप ख राजपत्रित), वेतनमान, 6500-10500, के पद पर उनके नामों के आगे अंकित तिथि से दिनांक 24 फरवरी 2003 तक सेवा या सेवानिवृत्त

होने तक अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

क्रम	नाम सर्व श्री/श्रीमती	तिथि
क.	सुन्दर लाल	29 अगस्त 2002
ख.	राज सिंह	वही
ग.	राजेंद्र प्रसाद	वही
घ.	उषा किरण	वही
च.	हरीश कुमार	वही
छ.	रतन लाल गुप्ता	27 सितम्बर 2002
ज.	राजश दीक्षित	वही
झ.	एस पी दरमन	28 अक्टूबर 2002
ट.	एस आर वेणुगोपाल	वही

इनकी नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर यह नियुक्तियाँ बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं।

सन्तोष दास गुप्ता  
 उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

थल सेना विभाग

सं० 110, दिनांक 16 जनवरी 2003—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

पीए सूबेदार मेजर दुली चन्द (जेसी-206078एल)—  
 01 अगस्त 2002।\*

पीए सूबेदार मेजर लक्ष्मण के (जेसी-206080एच)—  
 01 जुलाई 2002।

x(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाएगी)।

पीए सूबेदार मेजर रामाचन्द्रन के सी (जेसी-206096 एन)—01 अगस्त 2002।

पीए सूबेदार मेजर सुनील कुमार पाल (जेसी-206098 वाई)—01 अगस्त 2002।

पीए सूबेदार मेजर कैलाश चन्द्रा शर्मा (जेसी-206081 एल)—19 अगस्त 2002।

पीए सूबेदार मेजर राजबीर सिंह (जेसी-206799पी)  
 5 अगस्त 2002।

पीए सूबेदार मेजर मन मोहन काला (जेसी-206082 एन)—26 अगस्त 2002।\*

पीए सूबेदार मेजर धनवन्त सिंह (जेसी-206152 एफ)—24 अगस्त 2002।\*

पीए सूबेदार मेजर अमर दास (जेसी-206153के)—01 अगस्त 2002।

पीए सूबेदार मेजर गंगा सिंह (जेसी-206101एन)—02 अगस्त 2002।\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)।

पीए सूबेदार मेजर बनारसी लाल (जेसी-211919एम)—01 सितम्बर 2002।

पीए सूबेदार मेजर रमानाथ दाश (जेसी-206102 डब्ल्यू)—13 सितम्बर 2002।@

पीए सूबेदार मेजर अनुसुया प्रसाद (जेसी-206083 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 2002।

पीए सूबेदार मेजर रणधीर सिंह (जेसी-206344वाई)—01 सितम्बर 2002।

@(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)।

पीए सूबेदार मेजर/क्लर्क ख्याली राम (जेसी-802467 एल)—01 अक्टूबर 2002।

#### सूबेदार के रैंक में

पीए सूबेदार नवीन चन्द्र पन्त (जेसी-602391डब्ल्यू)—10 फरवरी 2002।\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2002 से दी जायेगी)।

पीए सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-802409एफ)—21 मई 2002।:

पीए सूबेदार सुशील कुमार गुप्ता (जेसी-802411 बाई)—01 मार्च 2002।

:(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2002 से दी जायेगी)।

पीए सूबेदार मयूर ध्वज नैथानी (जेसी-802444के)—09 मई 2002।=

पीए सूबेदार दिलीप कुमार देवनाथ (जेसी-802451ए)—06 अप्रैल 2002।=

=(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002 से दी जायेगी)।

पीए सूबेदार/क्लर्क राजपाल सिंह (जेसी-802751एफ)—01 अगस्त 2002।

पीए सूबेदार/क्लर्क बालकृष्णन पी० (जेसी-802752के)—01 अगस्त 2002।

पीए सूबेदार/क्लर्क सुरेश कुमार थालौर (जेसी-802753 एम)—01 सितम्बर 2002।

पीए सूबेदार/क्लर्क रसीदुल इस्लाम चौधरी (जेसी-802754पी)—01 सितम्बर 2002।

पीए सूबेदार/क्लर्क सुदर्शन मण्डल (जेसी-802755एक्स)—01 अक्टूबर 2002।

पीए सूबेदार/क्लर्क सुशान्त कुमार कोले (जेसी-802756 ए)—01 अक्टूबर 2002।

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शंकर मणी सेमवाल (सं० 9509146एल अब जेसी-803355एक्स)—17 जुलाई 2002।×

हवलदार अनिल कुमार (सं० 9509147एन अब जेसी-803356ए)—01 जुलाई 2002।×

हवलदार अरविन्द कुमार चौधरी (सं० 9509148 डब्ल्यू अब जेसी-803367एच)—01 जुलाई 2002।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)।

हवलदार गुरदेव सिंह बर्मा (सं० 9509149वाई अब जेसी-803358एल)—01 अगस्त 2002।

हवलदार प्रकाश कुमार अवस्थी (सं० 9509153एफ अब जेसी-803359एन)—01 अगस्त 2002।

हवलदार अनिल कुमार प्रसाद (सं० 9509155एम जेसी-803360एच)—01 अगस्त 2002।

हवलदार श्रीम प्रकाश सिंह (सं० 9509156पी अब जेसी-803361एल)—03 अगस्त 2002।:

हवलदार/क्लर्क राकेश भण्डारी (सं० 9508273एन अब जेसी-803362एन)—01 अगस्त 2002।

हवलदार/क्लर्क मुकेश (सं० 9508274 डब्ल्यू अब जेसी-803363डब्ल्यू)—01 अगस्त 2002।

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)।

हवलदार भक्तिकान्त साहु (सं० 9509159एच अब जेसी-803364वाई)—02 सितम्बर 2002।=

हवलदार सतबीर सिंह (सं० 9509162एच अब जेसी-803365एफ)—08 सितम्बर 2002।=

हवलदार कृष्ण देव तिवारी (सं० 9509163एल अब जेसी-803366के)—01 सितम्बर 2002।

हवलदार गिरजा शंकर सिंह (सं० 9509168के अब जेसी-803367एम)—01 सितम्बर 2002।

हवलदार मदन सिंह चौधरी (सं० 9509171के अब जेसी-803368पी)—01 सितम्बर 2002।

हवलदार क्लर्क निर्मल सिंह (सं० 9508279पी अब जेसी-803369एक्स)—01 सितम्बर 2002।

हवलदार/क्लर्क गुरनाम सिंह (सं० 9508281 एम अब जेसी-803370एम)—02 सितम्बर 2002।=

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाएगी)।

हवलदार/क्लर्क हरीश सिंह रौतेला (सं० 9508282पी अब जेसी-803375एल)—11 अक्टूबर 2002।"

हवलदार/क्लर्क जगरूप सिंह यादव (सं० 9508287 एम अब जेसी-803377डब्ल्यू)—11 अक्टूबर 2002।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी)।

विजय कुमार कपूर, अवर सचिव

सं० 111, दिनांक 17 जनवरी 2003—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

थल सेना विभाग

तोपखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार बीरमा अवारागोल (14460580एम अब जेसी-264706ए)—27 मई 2002/01 सितम्बर 2002।\*

बीएचएम रामा दासन के (14458331डब्ल्यू अब जेसी-264707एच)—27 मई 2002/01 जनवरी 2002।\*

आरएचएम मोगहन डी (14329134डब्ल्यू अब जेसी-264708एल)—25 मई 2002/11 जनवरी 2002।\*

हवलदार सुभाष कोरी (14361567एफ अब जेसी-264709एन)—06 जुलाई 2002/01 मार्च 2002।\*

हवलदार परमानन्द एसएम (14361272एल अब जेसी-264710एच)—08 जून 2002/15 मार्च 2002।\*

हवलदार चान्दनी प्रसाद सिंह (14489886वाई अब जेसी-264711एल)—18 मई 2002/18 मार्च 2002।\*

बीएचएम राजेन्द्रन (14343622के अब जेसी 264712एन)—23 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002।\*

बीएचएम शिव कुरियन टी (14462552ए अब जेसी-264713डब्ल्यू)—25 जून 2002/01 अप्रैल 2002।\*

बीएचएम दयानन्द यादव (14459213पी अब जेसी-264714वाई)—09 मई 2002/01 अप्रैल 2002।\*

हवलदार अमर सिंह (14457220एम अब जेसी-264715एफ)—27 मई 2002/01 अप्रैल 2002।\*

बीएचएम सत्यवीर सिंह (14470879एन अब जेसी-264716के)—25 मई 2002/21 अप्रैल 2002।\*

बीएचएम पुनर्धर राय (14349427एच अब जेसी-264717एम)—06 जून 2002/24 अप्रैल 2002।\*

हवलदार दामोदरन जी (14469277एन अब जेसी-264718पी)—25 मई 2002/01 मई 2002।\*

हवलदार महेश पाल सिंह (14465359वाई अब जेसी-264719एक्स)—01 जून 2002।

हवलदार गौरीपती कौतया (14345449के अब जेसी-264720एम)—08 जून 2002/01 जून 2002।\*

बीएचएम सत्यवीर सिंह (14463072एच अब जेसी-264721पी)—18 जून 2002/01 जून 2002।\*

हवलदार नारायण सिंह (14456425पी अब जेसी-264722एक्स)—12 मई 2002/02 अक्टूबर 2001।\*

बीएचएम मिलाप चन्द (14473820 बाई अब जेसी-264723ए)—16 जून 2002/01 फरवरी 2002।\*

हवलदार सुख राम सिंह (14466136एन अब जेसी-264724एच)—03 जून 2002/14 अप्रैल 2002।\*

हवलदार पूरन सिंह (14345080के अब जेसी-264725एल)—19 मई 2002/14 अप्रैल 2002।\*

हवलदार धरमवीर (14479705पी अब जेसी-264726एन)—05 अगस्त 2002/01 मई 2002।\*

हवलदार राम प्रमोद शर्मा (14341628एम अब जेसी-264727 डब्ल्यू)—18 जून 2002/18 मई 2002।\*

हवलदार हरी बन्धु प्रधान (14464605एम अब जेसी-264728वाई)—20 जून 2002/31 मई 2002।\*

बीएचएम पवार कल्याण धरमजी (14466808पी अब जेसी-264729एफ)—08 जून 2002/01 जून 2002।\*

आरएचएम लक्ष्मन सिंह (14461152एफ अब जेसी-264730 डब्ल्यू)—18 जून 2002/01 जून 2002।\*

बीएचएम के श्रीनिवासन (14483515ए अब जेसी-264731वाई)—10 जून 2002/01 जून 2002।\*

हवलदार मनजीत सिंह (14340430एफ अब जेसी-264732 एफ)—31 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002।\*

हवलदार जगताप दिलीप कौतब (14353829एक्स अब जेसी-264733के)—03 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002।\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सबस्टेडिब सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार हरनकष मिठल रावजी (जेसी-260207 एन)—06 नवम्बर 2001/01 जुलाई 2001।\*

नायब सूबेदार रामेश्वर सिंह (जेसी-258449 एक्स)—28 नवम्बर 2001/01 अगस्त 2001।\*

नायब सूबेदार धर्म राज (जेसी-260780के)—21 जनवरी 2002/01 अगस्त 2001।\*

नायब सूबेदार शोम प्रकाश (जेसी-२६१२०४एम)—  
२९ दिसम्बर २००१/०१ अगस्त २००१ ।\*

नायब सूबेदार हाकम सिंह (जेसी-२६००४०पी)—०२  
नवम्बर २००१/२२ अगस्त २००१ ।\*

नायब सूबेदार पेरुमल नारायण (जेसी-२६२०२३एन)—  
०५ जनवरी २००२/०१ सितम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार कान सिंह (जेसी-२६२६४७ए)—०६  
अक्तूबर २००१/०१ सितम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी-२६२०७६एम)—०३  
अप्रैल २००२/०४ सितम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-२५८८८६एक्स)—  
०१ अक्तूबर २००१ ।

नायब सूबेदार अनन्त राम शर्मा (जेसी-२५९७४३के)—  
०६ अक्तूबर २००१/०१ अक्तूबर २००१ ।\*

नायब सूबेदार लखविंदर सिंह (जेसी-२६०४१७एन)—  
०४ नवम्बर २००१/०१ नवम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार शालीन्दर सिंह (जेसी-२६१५७६एक्स)—  
२९ दिसम्बर २००१/०१ नवम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार अमीर सिंह (जेसी-२६१८१६के)—०१  
जनवरी २००२/०१ नवम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार भोलारे लक्ष्मण बाबुराव (जेसी-२६१५११के)  
—२३ दिसम्बर २००१/०१ नवम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार सुदर्शन कुमार एस० जी० (जेसी-२६१७०८  
ए)—०१ नवम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार देश राज (जेसी-२६१५४८एल)—१३  
जनवरी २००२/०१ नवम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार प्रकाश दगडू पाटील (जेसी-२६१४९९एन)  
—२६ दिसम्बर २००१/०१ नवम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार नवाब सिंह (जेसी-२६१८१४वाई)—१९  
नवम्बर २००१/०१ नवम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार रतधीर सिंह (जेसी-२६२१०९डब्ल्यू)—  
०१ नवम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार उमा शंकर पाण्डे (जेसी-२६१००३एन)—  
०१ नवम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार जनवाल सिंह (जेसी-२६२१६१पी)—  
२६ जनवरी २००२/०१ नवम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार निखील चन्द्रा रे (जेसी-२६१९६२के)—  
०१ नवम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार धरम पाल (जेसी-२५७५३१ए)—११  
जनवरी २००२/२५ नवम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-२५७०७५ए)—१४  
जनवरी २००२/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार राम भरोसे सिंह (जेसी-२५७९१९एल)—  
०४ दिसम्बर २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-२५७८१४एफ)—  
०१ जनवरी २००२/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-२५७९५०एक्स)—  
२६ दिसम्बर २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार ए० कालीया मूर्ति (जेसी-२५८९३४ए)—  
१७ दिसम्बर २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार एमवीएल नारायण राव (जेसी-२५८२४४  
एच)—०१ दिसम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार अमरीत लाल (जेसी-२५८१४३डब्ल्यू)—  
१६ दिसम्बर २००१/१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार गया प्रसाद (जेसी-२५८५०१पी)—१०  
दिसम्बर २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार सुलखान सिंह (जेसी-२५९०४२एन)—  
०१ दिसम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार गुरमल सिंह (जेसी-२६००५४पी)—०१  
दिसम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार निधी राम घोष (जेसी-२५८९६५एम)—  
२७ फरवरी २००२/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार भुवनेश्वर सिंह (जेसी-२५९६५१एक्स)—  
०४ फरवरी २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-२५९३५६पी)—०१  
दिसम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार थमन बहादुर पून (जेसी-२५९२३६एच)—  
०१ दिसम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार शेर सिंह राणा (जेसी-२६००५५एक्स)—  
०८ दिसम्बर २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार चन्द्रामनी खंडूरे (जेसी-२६०४७८  
एल)—०२ जनवरी २००२/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-२५९९१०पी)—२६  
अप्रैल २००२/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-२६०७८३एक्स)—  
२३ दिसम्बर २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह नारायण (जेसी-२६१०२३  
एफ)—१५ जनवरी २००२/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार ताजिन्द्र सिंह (जेसी-२६०८९८एल)—  
२९ दिसम्बर २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार गुन्डलू मदारिया (जेसी-२६१६१०एम)—  
०१ दिसम्बर २००१ ।

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-२६१५६४एच)—१२  
दिसम्बर २००१/०१ दिसम्बर २००१ ।\*

नायब सूबेदार महाडिक विलास आनंदराव (जेसी-२६१६८२  
डब्ल्यू)—२५ फरवरी २००२/०१ दिसम्बर २००१ ।\*



नायब सूबेदार राम प्रताप (जेसी-257823एच)—25  
जनवरी 2002/19 दिसम्बर 2001 ।\*

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-257142ए)—  
02 मार्च 2002/01 जनवरी 2002 ।\*

नायब सूबेदार महेंद्रा सिंह (जेसी-257667के)—01  
जनवरी 2002 ।

नायब सूबेदार बालाराम नायक एन (जेसी-259484  
एम)—20 मार्च 2002/01 जनवरी 2002 ।\*

नायब सूबेदार हेम राज शर्मा (जेसी-257505वाई)—  
01 जनवरी 2002 ।

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-258295डब्ल्यू)—  
17 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002 ।\*

नायब सूबेदार अशोक कुमार यादव (जेसी-259210  
एफ)—01 जनवरी 2002 ।

नायब सूबेदार सुभाषन्यम एम (जेसी-259639डब्ल्यू)—  
25 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002 ।\*

नायब सूबेदार तोता राम (जेसी-259454पी)—11  
फरवरी 2002/01 जनवरी 2002 ।\*

नायब सूबेदार भान सिंह (जेसी-260029डब्ल्यू)—  
29 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002 ।\*

नायब सूबेदार मोहन पिल्ले जी (जेसी-259848एन)—  
11 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002 ।\*

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-260269एन)—  
01 जनवरी 2002 ।

\*ज्योतिषा प्राप्त

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी/एच के टी) के पद में

हवलदार (एस के टी) भानु प्रसाद (सं० 14356685एल  
अब जेसी-263883एन)—01 अप्रैल 2001 ।

हवलदार (क्लर्क) इन्द्रा देव सिंह (सं० 14336633एन  
अब जेसी-264618के)—01 अप्रैल 2002 ।

हवलदार (एस के टी) प्रितम चन्द (सं० 14347059ए  
अब जेसी-264653एम)—01 जुलाई 2002 ।

हवलदार (क्लर्क) घाडगे महादेव शिवाराम (सं०  
14356812पी अब जेसी-264653पी)—01 अगस्त 2002 ।

हवलदार (क्लर्क) जगत नारायण सिंह (सं० 14474908  
पी अब जेसी-264655एक्स)—01 अगस्त 2002 ।

हवलदार (क्लर्क) वज्रंज सिंह चौहान (सं० 14499612  
एफ अब जेसी-264619एम)—01 अगस्त 2002 ।

हवलदार (क्लर्क) ललित मोहन (सं० 15102771पी  
अब जेसी-264656ए)—01 अगस्त 2002 ।

हवलदार (क्लर्क) भगत सिंह (सं० 14482269एन)  
अब जेसी-264620एफ)—01 अगस्त 2002 ।

वायु रक्षा तोपखाना कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (टि० आई० एफ० सी०) के पद में

सूबेदार राजिंदर पाल (जे सी-171081 के)—1 नवम्बर,  
2002/1 अक्टूबर, 2002 ।\*

सूबेदार नन्द किशोर यादवा (जे सी-175586 एक्स)—  
20 नवम्बर, 2002/1 नवम्बर, 2002 ।\*

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार लाल चंद यादव (जे पी-297714 वाई)—  
12 अक्टूबर, 2002/01 जुलाई, 2002 ।\*

नायब सूबेदार रघुवर सिंह (जे सी-297609एच)—  
10 अक्टूबर, 2002/15 जुलाई, 2002 ।\*

नायब सूबेदार रजनी राज खोवा (जे सी-297826 वाई)  
—14 नवम्बर, 2002/15 जुलाई, 2002 ।\*

नायब सूबेदार कैलाश चंदर शर्मा (जे सी-297616 वाई),  
—14 सितम्बर, 2002/25 जुलाई, 2002 ।\*

नायब सूबेदार अमीन चंद (जे सी-297710 एच)—  
12 सितम्बर, 2002/25 जुलाई, 2002 ।\*

नायब सूबेदार बीर मंगल तिवा (जे सी-297779 एम)  
—21 सितम्बर, 2002/29 जुलाई, 2002 ।\*

नायब सूबेदार मनी के (जे सी-297715 एफ)—  
8 अक्टूबर, 2002/1 अगस्त, 2002 ।\*

नायब सूबेदार अब्दुल चंद्र बर्मन (जे सी-297681 वाई)  
—20 नवम्बर, 2002/27 अगस्त, 2002 ।\*

नायब सूबेदार राज कंवर वशिष्ठ (जे सी-296423 एम)  
—9 अक्टूबर, 2002/1 सितम्बर, 2002 ।\*

नायब सूबेदार साँबर मल (जे सी-296623 एच)—  
1 सितम्बर, 2002 ।

नायब सूबेदार राम सेवक मिश्रा (जे सी-297011 एक्स)  
—17 सितम्बर, 2002/1 सितम्बर, 2002 ।\*

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जे सी-297001 एन)—  
10 सितम्बर, 2002/1 सितम्बर, 2002 ।\*

नायब सूबेदार विजय सिंह (जे सी-297101 वाई)—  
1 सितम्बर, 2002 ।

नायब सूबेदार भारत कुमार प्रमानिक (जे सी-297150  
एफ)—3 अक्टूबर, 2002/1 सितम्बर, 2002 ।\*

नायब सूबेदार जितेन चंद्र बरूवा (जे सी-297382 ए)—  
1 सितम्बर, 2002 ।

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जे सी-297355 डब्ल्यू)—  
1 दिसम्बर, 2002/1 सितम्बर, 2002 ।\*

नायब सूबेदार प्रभु सिंह (जे सी-297390 वाई)—  
1 सितम्बर, 2002 ।

नायब सूबेदार प्रकाश चंद (जे सी-297424 एफ)—  
16 सितम्बर, 2002/1 सितम्बर, 2002 ।\*

नायब सूबेदार अमर नाथ सिंह (जे सी-297508 पी)—  
7 सितम्बर, 2002/\*1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार रनवीर सिंह (जे सी-297643 एच)—  
4 सितम्बर, 2002/\*1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार प्रानी दत्त (जे सी-297675 एल)—  
2 सितम्बर, 2002/\*1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार सुबे सिंह (जे सी-297651 एफ)—15  
अक्टूबर, 2002/\*1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार गंगाधर तिगाडी (जे सी-297679 एफ)—  
1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार योहानन के. यू. (जे सी-297755 एच)—  
11 अक्टूबर, 2002/\*1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार ए जया चंद्रन (जे सी-297756 एल)—  
24 सितम्बर, 2002/\*1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार खिरोड चंद्र दास (जे सी-297743 एन)—  
15 सितम्बर, 2002/\*1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार एस. सिनिवास (जे सी-297904 एल)—  
1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार रामानुजन नायर वी. (जे सी-297912 के)—  
26 अक्टूबर, 2002/\*1 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार रामेश्वर लाल शर्मा (जे सी-297752 पी)—5 अक्टूबर, 2002/\*3 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार कार्थिका राजन पी. वी. (जे सी-297453 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 2002/\*8 सितम्बर, 2002।

नायब सूबेदार पी. सुकुमारन (जे सी-296807 एफ)—  
9 अक्टूबर, 2002/\*1 अक्टूबर, 2002।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे सी-297189 एन)—  
1 अक्टूबर, 2002।

नायब सूबेदार विमल ऐंद (जे सी-297057 ए)—  
8 अक्टूबर, 2002/\*1 अक्टूबर, 2002।

नायब सूबेदार पलविंदर सिंह (जे सी-297343 एफ)—  
31 अक्टूबर, 2002/\*1 अक्टूबर, 2002।

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह यादव (जे सी-297787 एम)—  
12 अक्टूबर, 2002/\*1 अक्टूबर, 2002।

नायब सूबेदार उमेश चंद्र दास (जे सी-297911 एफ)—  
20 नवम्बर, 2002/\*1 अक्टूबर, 2002।

नायब सूबेदार पवननजय डोड्डामाने (जे सी-297045 एल)—1 नवम्बर, 2002।

नायब सूबेदार राम सिंह सकलानी (जे सी-297008 एक्स)—  
1 नवम्बर, 2002।

नायब सूबेदार आनंद मिश्र (जे सी-296956 पी)—  
1 नवम्बर, 2002।

नायब सूबेदार राठोड प्रभात सिंह (जे सी-297275 वाई)—  
1 नवम्बर, 2002।

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जे सी-297541 एम)—  
13 नवम्बर, 2002/\*1 नवम्बर, 2002।

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए. आई. जी.) के पद में

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जे सी-297226 डब्ल्यू)—  
1 नवम्बर, 2002।

सब्सटेंटिव सूबेदार (एसकेटी) के पद में

नायब सूबेदार कुंजुमत एम. (जे सी-296577 वाई)—  
1 नवम्बर, 2002।

सब्सटेंटिव सूबेदार (धर्म शिक्षक) के पद में

नायब सूबेदार सुरेश उपाध्याय (जे सी-255047 पी)—  
24 नवम्बर, 2002/\*1 नवम्बर, 2002।

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)।

राजेंद्र चतुर्वेदी  
अवर सचिव

सं. 112, दिनांक 22 जनवरी 03—राष्ट्रपति सहर्ष  
निम्नलिखित ए. एम. सी. अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि  
से पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेवा

स्थायी कमोशन

कैप्टन से मेजर के पद पर

दिवास्वतो शांतोष (एम एन-13322-एन) (एम आर-  
07789-एफ) ए. एम. सी.—6 अक्टूबर 2001।

गौतम मलिक (एम आर-07027 ए). ए. एम. सी.—  
30 जून 2002।

विद्या भुवत शुक्ला (एम एस-13055-एच) (एम आर-  
07582-एन), ए. एम. सी. 14 जनवरी 2000 (भारत सरकार  
के राजपत्र के दिनांक 4-8-2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय  
को अधिसूचना के सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द  
किया जाता है।)

संदीप कुमार गुप्ता (एम एन-13205-एन) (एम आर-  
07812-डब्ल्यू), ए. एम. सी. 12-11-2000 (भारत सरकार  
के राजपत्र दिनांक 12-01-2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय  
को अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द  
किया जाता है।)

शीकत अली (एम एस-13087-एल) एम आर-07772  
ए), ए. एम. सी. 14-01-2000 (भारत सरकार के राजपत्र के  
दिनांक 01-12-2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय को अधि-  
सूचना के सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द  
किया जाता है।)

संदेप गुप्ता (एम एस-13571-के) (एम आर-07780-वाई) ए एम सी 03-10-2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11-5-2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

श्रीमती राशी चड्ढा (एम एस-13590-एच) एम आर-7781-एफ), ए एम सी-10-4-2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12-10-2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

कप्तान के पद पर

(कुं) रिचा रंजन (एम आर-7405-एन), ए एम सी-15 फरवरी 2001।

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

सचिन तनेजा (एम आर-07628-एल) (75764-आर) ए एम सी, 16 जुलाई 2002।

के० बी० एन० एस० डोड  
ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं० 113, दिनांक 21 जनवरी, 03-राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को मूल पदोन्नति करते हैं :-

स्थायी कमीशन

ग्रुप कैप्टन से एयर कमांडोर के पद पर

जे० के० डे० (एम आर-3203पी) (एएफ-12250एल) ए एम सी पी सी-13 जनवरी, 2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 1 अगस्त, 2000)।

एस० पी० कपूर (एम आर-2469 पी) (एएफ-11928 जी) ए एम सी पी सी-13 नवम्बर, 2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 3 नवम्बर, 2000 से)।

अन्जुला नायब

एस सी एस ओ

स० नि० स० से० चि० सेवा (कार्मिक)

सं० 114, दिनांक 22 जनवरी, 2003-राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

बी० एस० राठी (आई सी-35942)—1 जनवरी, 2000।

शेखर नायडू (आई सी-35943)—1 जनवरी, 2000।

प्रेम सागर (आई सी-35944)—1 जनवरी, 2000।

आर० जसियाल (आई सी-35945)—1 जनवरी, 2000।

बी० एस० देओल, (आई सी-35946)—1 जनवरी, 2000।

एन० के० मिश्रा, (आई सी-35947)—1 जनवरी, 2000।

आर० एस० सांगवान, (आई सी-35949)—1 जनवरी, 2000।

पी० रामन, (आई सी-35952)—1 जनवरी, 2000।

ए० एल० चव्हाण, (आई सी-35953)—1 जनवरी, 2000।

शरद खट्टर, (आई सी-35954)—1 जनवरी, 2000।

अमरीक सिंह, आई सी-(35955)—1 जनवरी, 2000।

ए० एस० सांगवान (आई सी-35956)—1 जनवरी, 2000।

आई० एस० बिरमान (आई० सी-35957)—1 जनवरी, 2000।

ए० के० पाठक (आई० सी-35958)—1 जनवरी, 2000।

बी० एस० अधिकारी (आई० सी-35959)—1 जनवरी, 2000।

एस० के० पटयाल (आई० सी-35960)—1 जनवरी, 2000।

एल० के० पांडे (आई० सी-35962)—1 जनवरी, 2000।

एस० एम० जी० गाडकर (आई सी-35963)—1 जनवरी, 2000।

आर० आर० निम्भोरकर (आई० सी-35965)—1 जनवरी, 2000।

शमशेर सिंह (आई० सी-35967)—1 जनवरी, 2000।

जहार० सी० कटोच (आई० सी-35969)—1 जनवरी, 2000।

ए० के० जयाचन्द्रन (आई० सी-35970)—1 जनवरी, 2000।

एन० आर० मित्रा (आई० सी-35971)—1 जनवरी, 2000।

एस० डी० मंगावा (आई० सी-35972)—1 जनवरी, 2000।

एस० आर० फाटक (आई० सी-35974)—1 जनवरी, 2000।

डी० के० त्रिपाठी (आई० सी-35975)—1 जनवरी, 2000।

पी० आर० देशपांडे (आई सी-35976)—1 जनवरी, 2000 ।  
 डी० के० रावल (आई सी-35977)—1 जनवरी, 2000 ।  
 अमरजीत सिंह (आई सी-35978)—1 जनवरी, 2000 ।  
 जे० एस० सुरज (आई सी-35979)—1 जनवरी 2000 ।  
 एन० एस० बाबा (आई सी-35981)—1 जनवरी, 2000 ।  
 एस० बी० चाव्हान (आई सी-35982)—1 जनवरी, 2000 ।  
 अनुराग गुप्ता (आई सी-35983)—1 जनवरी, 2000 ।  
 ए० के० घोष (आई सी-35984)—1 जनवरी, 2000 ।  
 राजीव आनन्द (आई सी-35985)—1 जनवरी 2000 ।  
 बी० एन० विजय कुमार (आई सी-35986)—1 जनवरी, 2000 ।  
 डी० आर० सोनी (आई सी-35987)—1 जनवरी, 2000 ।  
 अजय अहलावत (आई सी-35988)—1 जनवरी 2000 ।  
 एस० पी० एस० कुंवर (आई सी-35989)—1 जनवरी, 2000 ।  
 ए० एस० चिटचोर (आई सी-35992)—1 जनवरी, 2000 ।  
 आर० के० मक्सेना (आई सी-35993)—1 जनवरी, 2000 ।  
 हरदीप सिंह (आई सी-35996)—1 जनवरी, 2000 ।  
 हर्षा कक्कर (आई सी-35998)—1 जनवरी, 2000 ।  
 के० के० अरुन (आई सी-38001)—1 जनवरी, 2000 ।  
 वादल बर्मा (आई सी-38002)—1 जनवरी, 2000 ।  
 पी पी घोका (आई सी-38006)—01 जनवरी 2000 ।  
 ए खान (आई सी-38007)—01 जनवरी 2000 ।  
 जी एस मुलतानी (आई सी-38008)—01 जनवरी 2000 ।  
 पी के श्रीवास्तव (आई सी-38011)—01 जनवरी 2000 ।  
 रविन्दर सिंह (आई सी-38012)—01 जनवरी 2000 ।  
 विनोद के पिल्लई (आई सी-38013)—01 जनवरी 2000 ।  
 डी पी सिंह (आई सी-38014)—01 जनवरी 2000 ।  
 एच के अहलूवालिया (आई सी-38016)—01 जनवरी 2000 ।

एस वेनुगोपाल (आई सी-38018)—01 जनवरी 2000 ।  
 सी रामाचन्द्रन (आई सी-38019)—01 जनवरी 2000 ।  
 आर छिन्बर (आई सी-38020)—01 जनवरी 2000 ।  
 एल एन सिंह (आई सी-38024)—01 जनवरी 2000 ।  
 रविन्दर सिंह (आई सी-38025)—01 जनवरी 2000 ।  
 वी के तिवारी (आई सी-38026)—01 जनवरी 2000 ।  
 डी पी सिन्हा (आई सी-38027)—01 जनवरी 2000 ।  
 सुनील भण्डारी (आई सी-38028)—01 जनवरी 2000 ।  
 एस एस इवानगो (आई सी-38029)—01 जनवरी 2000 ।  
 जिग्मी जौन (आई सी-38030)—01 जनवरी 2000 ।  
 देविन्दर सिंह (आई सी-38031)—01 जनवरी 2000 ।  
 ए बी कुमार (आई सी-38036)—01 जनवरी 2000 ।  
 नरिन्दर सिंह (आई सी-38038)—01 जनवरी 2000 ।  
 चन्द्रा सेखर (आई सी-38043)—01 जनवरी 2000 ।  
 पी सचदेवा (आई सी-38044)—01 जनवरी 2000 ।  
 अनिल मसिक (आई सी-38049)—01 जनवरी 2000 ।  
 रमेश खोसला (आई सी-38050)—01 जनवरी 2000 ।  
 एस के गुप्ता (आई सी-38059)—01 जनवरी 2000 ।  
 वी के पाण्डे (आई सी-38060)—01 जनवरी 2000 ।  
 ए के नायर (आई सी-38063)—01 जनवरी 2000 ।  
 दीपंकर रे (आई सी-38066)—01 जनवरी 2000 ।  
 एस के अन्नी (आई सी-38068)—01 जनवरी 2000 ।  
 एस के शर्मा (आई सी-38071)—01 जनवरी 2000 ।  
 ए एस पटिल (आई सी-38073)—01 जनवरी 2000 ।  
 जे एस सेखों (आई सी-38074)—01 जनवरी 2000 ।  
 आर एस यादवा (आई सी-38075)—01 जनवरी 2000 ।  
 एस ई हक (आई सी-38089)—01 जनवरी 2000 ।  
 जे एन मनराज (आई सी-38090)—01 जनवरी 2000 ।  
 ए एस पिन्टो (आई सी-38093)—01 जनवरी 2000 ।  
 एन रामगोपाल (आई सी-38096)—01 जनवरी 2000 ।  
 ए के पन्त (आई सी-38097)—01 जनवरी 2000 ।  
 एस एस लाभेर (आई सी-38100)—01 जनवरी 2000 ।  
 एस एस कुकशाल (आई सी-38105)—01 जनवरी 2000 ।  
 जे एस शाही (आई सी-38108)—01 जनवरी 2000 ।  
 आर जी लक्ष्मण (आई सी-38111)—01 जनवरी 2000 ।  
 ए के राय (आई सी-38114)—01 जनवरी 2000 ।  
 जी एस बाटाबयाल (आई सी-38118)—01 जनवरी 2000 ।

प्रीनभ गांगुली (आईसी-38120)—01 जनवरी 2000।  
 निरेश राठीर (आईसी-38122)—01 जनवरी 2000।  
 डी के के नफाडे (आईसी-38125)—01 जनवरी 2000।  
 एन के यादव (आईसी-38131)—01 जनवरी 2000।  
 के जी रमेश कुमार (आईसी-38134)—01 जनवरी 2000।  
 जी सुभामनियन (आईसी-38135)—01 जनवरी 2000।  
 विनोद चेरियन (आईसी-38153)—01 जनवरी 2000।  
 एस० जे० सिंह (आईसी-33447), ए सी—1-8-1996

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में

(समय मान) द्वारा

आईसी-37872 बी बी मार्क, मैक इन्फैंट्री—27-04-2002।  
 आईसी-37915 आर सिंह, ए ग्रीसी—27-04-02।  
 आईसी-40159 ए सहाय, इन्फैंट्री—19-12-2001।  
 आईसी-40310 के आर ढाका, सिरस—12-06-2002।  
 आईसी-40589 टी होडा, ए सी—12-06-2002।  
 आईसी-40414 नीरज कुमार, मैक इन्फैंट्री—13-06-2002।  
 आईसी-40449 बी तलवार, ए ग्रीसी—12-06-2002।  
 आईसी-40470, ए टी सक्सेना, एडी आर्टी—12-06-02  
 आईसी-42253 टी के ससीधरन, इन्जीनियर्स—13-06-2002।  
 आईसी-40473 पी थापा, मैक इन्फैंट्री—13-06-2002।  
 आईसी-40544 एस कुमार, इन्फैंट्री—12-06-2002।  
 आईसी-40551 ए एस नेगी, इन्फैंट्री—12-06-2002।  
 आईसी-40557 आर ए भा इन्फैंट्री—12-06-02।  
 आईसी-40577 अजय सिंह, इन्फैंट्री—12-06-02।  
 आईसी-40631 के नायन, इन्फैंट्री—12-06-2002।  
 आईसी-40642 आलोक माथुर, ईएमई—12-06-2002।  
 आईसी-40643 एन एस असवाल, इन्फैंट्री—12-06-02।  
 आईसी-40630 पी चन्द्रा, इन्फैंट्री—12-6-2002।  
 आईसी-40635 डी सिंह, आर्टी—12-6-2002।  
 आईसी-40379 महेन्द्र भाटी, एडी आर्टी—12-06-2002।  
 आईसी-40386 डी एस पाण्डे, इन्फैंट्री—12-6-2002।

आईसी-40397 बी एस पाटिल, ए ग्रीसी—12-6-2002।

आईसी-30938 एच डी अनाल, एएस सी—22-06-1996।

आईसी-40491 एएस बाजवा, ए सी—12-06-2002।

आईसी-40372 आर सिंह, ए ग्रीसी—12-06-2002।

एस एल-02929 आर एस सागवान, एस एल (आरओ)—22-07-2002।

एसएल-02906 पी आर के नायर, एसएल (आरओ)—22-07-2002।

एस एल-02963, आर एस बलवाडा, एसएल (सीआईपी)—22-07-2002।

एसएल-02982 उमा कान्त, एसएल (ईई)—22-07-2002।

एस एल-02923 राम कंवर, एसएल (आरओ)—22-07-2002।

एसएल-02938 जी बी एन राव, एसएल (एओ)—22-07-2002।

एसएल-02966 वेद प्रकाश, एसएल (सीआईपी)—22-07-02।

एसएल-02971 बीर पाल सिंह, एसएल (सीआईपी)—26-07-2002।

एसएल-02927 गुरमेल सिंह, एसएल (आरओ)—22-07-2002।

एसएल-02970 बी एल सैनी, एसएल (सीआईपी)—22-07-2002।

एसएल-02958 बहादुर सिंह, एसएल (टीओटी)—22-07-2002।

आई सी-39318 डी के ठाकुर, इन्फैंट्री—13 दिसम्बर 2000।

आई सी-39255 एस एस सजवान, आर्टी—13 दिसम्बर 2000।

एल एम सो/81 (जुलाई-दिसम्बर)

आई सी-39954 राजेश तिवारी इन्फैंट्री—19 दिसम्बर 2001।

एल एम सो/82 (जन०-जून)

आई सी-40451 आर के एस सुहाग, इन्फैंट्री—12 जून 2002।

आई सी-40605 एच शर्मा, इन्फैंट्री—12 जून 2002।

आई सी-40559 रविन्दर सिंह, मैक इन्फैंट्री—13 जून 2002।

अशिश शंकर सिन्हा  
 उप निदेशक सेना सचिव

सं० 115, दिनांक 21 जनवरी 2003—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :

नियमित सेना

स्थाई कमोशन (विशेष सूची)

कप्तान से मेजर

एस एल-3900 ए० एस० शंखावत-12 अप्रैल 2002।

के० एस० वर्मा,  
संयुक्त निदेशक  
एम एस 8सी

वायु सेना

सं० 116, दिनांक 22 जनवरी 03—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों मूल रैंक में करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

प्रशासन शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट स्ववाइन लीडर मूल रैंक में

फ्लाईट लेफ्टिनेंट आर सबसटियन (बी सी-19008)—19 सितम्बर 1999 में।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लेफ्टिनेंट के रैंक में

फ्लाईंग अफसर आर संगवान (21375)—16 सितम्बर 1996।

एस बी कुटे  
स्ववाइन लीडर  
ए डी पी बी 3(डी)

थल सेना विभाग

सं० 117, दिनांक 22 जनवरी 03—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 4 अगस्त 2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन कमोशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमोशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमोशन

कप्तान के पद पर

विद्या भूषन शुक्ला एम बी बी एस (एम एस-13055-एच) अब (एम आर-07582-एन), ए एम सी, 13-6-1995 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से दी जायेगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई को पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिये गिनी जायेगी पर उपदान के

लिये नहीं माना जायेगा। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 1-5-1999 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 06-12-2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमोशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमोशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमोशन

कप्तान के पद पर

संदीप कुमार गुप्ता एम बी बी एस (एम एस-13205-एन) अब (एम आर-07812-डब्ल्यू), ए एम सी, 12-5-97, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12-11-1996 से दी जायेगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं माना जायेगा। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13-09-2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 24-2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन कमोशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमोशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमोशन

कप्तान के पद पर

विचारे नितीन वसन्त एम बी बी एस (एम एस-13458-एच) अब (एम आर-07777-वाई), ए एम सी, 12-2-1999 वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता से दी जायेगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई को पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिये गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिये नहीं माना जायेगी (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 5-2-2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

अनूप कृष्णन जानकी राम एम बी बी एस (एम एस-13459-एल) अब (एम आर-07776-डब्ल्यू), ए एम सी, 12-02-1999, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से दी जायेगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई—को पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिये गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं माना जायेगी (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25-03-2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

अवधेश कुमार सिंह, एम बी बी एस (एम एस-13785-एन) अब (एम आर-07778-ए), ए एम सी, 01-03-99, वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता—से हो जायेगी। इसमें के लिए दी गई—की पूर्ववरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23-9-2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

शौकत अली, एम बी बी एस (एम एस-13087-एल) अब (एम आर-07772-ए), ए एम सी, 14-09-1995, वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 14-03-1995 से हो जायेगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिये गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिये नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30-10-1999 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

कुलविन्दर सिंह, एम बी बी एस (एम एस 13447-डब्लु) अब (एम आर 07775-एन), ए एम सी, 1 जनवरी, 1999 वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता—से हो जायेगी। (इससे अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई—की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिये गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिये नहीं मानी जायेगी। भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 दिसम्बर, 1999 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 4 दिसम्बर, 2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

मनप्रीत कौर बसरा एम बी बी एस (एम एस-13270-एन) अब (एम आर-07779-के), ए एम सी, 8 सितम्बर, 1997, वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 8 मार्च, 1997 से हो जायेगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई 6 महीने की पूर्ववरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिये गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिये नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 9 मार्च, 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

संदीप गुप्ता एम बी बी एस (एम एस-13517-के) अब (एम आर-07780-वाई), ए एम सी-3 अक्टूबर, 1997, वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता—से हो

अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई—की पूर्ववरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिये गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिये नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 8 फरवरी, 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

एस गोपी नाथ, एम बी बी एस (एम एस-13783-एच), अब (एम आर-07791-एल), ए एम सी 25 अगस्त, 1999, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता—से हो जायेगी। इसमें —के लिए दी गई — की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

ए बी के राजु एम, बीबीएस (एम एस-13853-डब्लु) अब (एम आर-07786-ए), ए एम सी, 23 फरवरी, 1999, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता — से हो जायेगी। इसमें — के लिए दी गई — की पूर्ववरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 8 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

रिवेश कुलकर्णी, एम बी बी एस (एम एस-13632-के) अब (एम आर-07788-एल), ए एम सी 9 जुलाई, 1999, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता — से हो जायेगी। इसमें — के लिए दी गई — की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 8 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

श्रीमती राशो चड्ढा, एम बी बी एस (एम एस-13590-एच) अब (एम आर-07781-एफ), ए एम सी 10 अप्रैल, 1998 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता—से हो जायेगी। इसमें — के लिए दी गई — की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 मार्च, 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

ममता आचार्य, एम बी बी एस (एम एस-13818-एन) अब (एम आर-07784-पी), ए एम सी 19 जून, 1999, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता — से हो जायेगी। इसमें — के लिए दी गई — की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 31 मार्च, 2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

रजनीश कुमार भारत, एम बी बी एस (एम एस-13780-पी) अब (एम आर-07793-डब्लू), ए एम सी, 1 फरवरी, 1999, वेतन और पदोन्नति के लिए बरिष्ठता—से हो जायेगी इसमें — के लिए दी गई — की पूर्व बरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए मानी जायेगी । (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है ।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 20 फरवरी, 2002 से सेना चिकित्सा कोर से अपकालीन सेवा कमीशन में मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं ।

#### नियमित सेना

##### स्थायी कमीशन

##### कप्तान के पद पर

दिवास्पथी शालीमठ, एम बी बी एस (एम एस-13322-एल) अब (एम आर-07789-एफ), ए एम सी, 6 अक्टूबर, 1997 वेतन और पदोन्नति के लिए बरिष्ठता—से हो जायेगी । इसमें — के लिए दी गई — को पूर्व बरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी । भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 नवम्बर, 1998 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है ।)

के० बी० एन० एस० डोइ  
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कामिक)

#### सेना चिकित्सा कोर

सं० 118, दिनांक 22 जनवरी 2003—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को सेना से समय पूर्व सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नाम, रैंक और एम आर नं० निवृत्ति की तिथि

(क) कर्नल एस बी सोमन (एम आर-2790) —13-07-2001 (अपराह्न)

(ख) कर्नल जी एल सचदेव (एम आर-3483) —24-07-2002 (अपराह्न)

(ग) ले० कर्नल एच के रंगन (एम आर-2585) —20-05-02 (अपराह्न)

(घ) ले० कर्नल के एस हरिकृष्णन (एम आर-3675) —06-05-02 (अपराह्न)

(ङ) ले० कर्नल ए के दत्ता (एम आर-3676) —29-07-02 (अपराह्न)

(च) ले० कर्नल एस दत्ता (एम आर-37632) —17-06-2002 (अपराह्न)

(छ) ले० कर्नल एन आर राजन (एम आर-3740) —16-03-2002 (अपराह्न)

(ज) ले० कर्नल राकेश पुरी (एम आर-4830) —11-03 02 (अपराह्न)

के० बी० एन० एस० डोइ  
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कामिक)

#### थल सेना शाखा

सं० 119, दिनांक 22 जनवरी 2003—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश एस ए आई 3/98 के अन्तर्गत उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त करते हैं । अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) — उनकी नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी आयु 40 वर्ष होने तक, दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाए ।

#### नियमित सेना

##### अल्प सेवा कमीशन

लेफ्टिनेन्ट जी एम के रेड्डी (एस एस-36757), आर्टी—  
20-09-2001

लेफ्टिनेन्ट मोहम्मद एफ कुरैशी (एस एस-35593), ए एस सी—05-04-99

लेफ्टिनेन्ट एम एस सेहरावत (एस एस-36795), आर्टी—  
23-09-2001

लेफ्टिनेन्ट एस बी जाधव (एस एस -36343), ए सी—  
01-10-2001

लेफ्टिनेन्ट प्रमोद चन्द्रा जोशी (एस एस-36793), आर्टी—  
—24-08-2001

लेफ्टिनेन्ट एस ए ए रिजवी (एस एस-36862), इन्फ—  
21-09-2001

लेफ्टिनेन्ट इ के पी प्रसाद (एस एस-36814), इंजीनियर  
—21-09-2001

लेफ्टिनेन्ट जी एस बरार (एस एस-36859), आर्टी—  
21-09-2001

लेफ्टिनेन्ट वैकटेश बी (एस एस-36837), ए एस सी—  
21-09-2001

लेफ्टिनेन्ट ईसाक जोसफ (एस एस-36252), इन्फ—  
21-10-2001

लेफ्टिनेन्ट जोनसन जे (एस एस-36852), ई एम ई—  
21-09-02

लेफ्टिनेन्ट विनोद कुमार (एस एस-36581), आर्टी—  
11-08-2001

लेफ्टिनेन्ट आश्विन सैनी (एस एस-37874), इन्फ—  
04-10-2001

लेफ्टिनेन्ट के एस सुरेश कुमार (एस एस-36279), इन्फ—  
—08-11-2001

लेफ्टिनेन्ट निशांत चिह्ना (एम एस-36032), इन्फ—  
29-10-2001



लेफ्टिनेन्ट जी एन तिवारी (एस एस-35516), ईन्फ—  
25-08-2001

लेफ्टिनेन्ट एम एन झा (एस एस-36661), ए एस सी—  
06-07-2001

लेफ्टिनेन्ट धीरज कुमार (एस एस-36316), ए डी आर्टी—  
10-04-2001

लेफ्टिनेन्ट विजय कुलहारी (एस एस-36594), ईन्फ—  
25-04-2001

लेफ्टिनेन्ट ए एस मनोहर (एस एस-36101), इंजीनियर्स—  
22-04-2002

लेफ्टिनेन्ट कालेब अग्गादुरै (एस एस-36096), ईन्फ—  
25-04-2001

लेफ्टिनेन्ट के माथी (एस एस-36701), ए सी—  
06-04-2001

लेफ्टिनेन्ट समीर शर्मा (एस एस-36689), ईन्फ—  
06-04-2001

लेफ्टिनेन्ट ए आर सतीश (एस एस-36671), ईन्फ—  
06-04-2001

लेफ्टिनेन्ट विक्रम ठाकुर (एस एस-36429), ईन्फ—  
21-10-2001

लेफ्टिनेन्ट बालाराम गोस्वामी (एस एस-36583), आर्टी—  
06-04-2001

लेफ्टिनेन्ट सुखवन्त सिंह (एस एस-36759), ईन्फ—  
21-09-2001

लेफ्टिनेन्ट साजीत शंकर (एस एस-36611), ईन्फ—  
09-03-2001

लेफ्टिनेन्ट अनिल वर्मा (एस एस-36638), आर्टी—  
06-04-2001

लेफ्टिनेन्ट निशीत त्रिवेदी (एस एस-36645), आर्टी—  
06-04-2001

लेफ्टिनेन्ट राजेश गुलिया (एस एस-36024), ईन्फ—  
01-03-2001

लेफ्टिनेन्ट गौरव चौधरी (एस एस-35399), आर्टी—  
01-05-2001

लेफ्टिनेन्ट के सी त्रिपाठी (एस एस-36803), ईन्फ—  
24-08-2001

लेफ्टिनेन्ट विजय प्रकाश नायडू (एस एस-36282), आर्टी—  
11-03-2000

लेफ्टिनेन्ट बी एस श्रीकान्त (एस एस-36134), ईन्फ—  
13-09-2000

लेफ्टिनेन्ट बी सी गिरी (एस एस-36448), ईन्फ—14  
19-01-2001

लेफ्टिनेन्ट अनिल वैद्य (एस एस-36747), ईन्फ—  
21-09-2001

लेफ्टिनेन्ट पी एन विलियम थनगाराज (एस एस-35699);  
ईएमई—17-01-1999

लेफ्टिनेन्ट अमित बालिहर (एस एस-35868), ईन्फ—  
31-05-1999

3-464 GI/2002

लेफ्टिनेन्ट बलैन्द्र नाथ (एस एस-36697), ईन्फ—  
06-04-2001

लेफ्टिनेन्ट एस के गुलाटी (एस एस-35195), आर्टी—  
28-10-1997

लेफ्टिनेन्ट राजेश नायक (एस एस-36655), ईन्फ—  
05-06-2001

लेफ्टिनेन्ट संदीप चौहान (एस एस-36126), ए डी आर्टी—  
01-02-2001

लेफ्टिनेन्ट राबिन जार्ज (एस एस-36641), आर्टी—  
06-04-2001

लेफ्टिनेन्ट शरद गौतम (एस एस-36442), ए सी—  
12-06-2001

ए के एस चौहान  
कर्मल एम एस

#### थल सेना शाखा

संख्या 120, दिनांक 21 जनवरी 2003 :—निम्नलिखित  
अधिकारियों को एस जी सी एम के द्वारा निम्नलिखित सजा दी  
जाती है :—

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

आई सी 44649 मेजर तरुण तिवारी इन्फैन्ट्री

(अ) प्रोन्नति के लिए एक साल की पूर्व सेवा का सम-  
पहरण किया जाए

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए—04 जनवरी 2002

निम्नलिखित अधिकारियों को जी सी एम के द्वारा निम्न-  
लिखित सजा दी जाती है :—

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

आई सी 41513 मेजर विनय कुमार बिहारी, [ए डी आर्टी]

(अ) पेंशन हेतु चार साल की पूर्व सेवा का समपहरण किया  
जाए।

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए—23 जुलाई 2001

आई सी 55049 कैप्टन मनीष श्रोवास्तव, ई एम ई

— 27 अगस्त 2001।

(अ) सेवा से बर्खास्त किया जाए।

निम्नलिखित अधिकारियों को कमाण्डर 373 (I) आर्टी  
ब्रिगेड के द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है :—

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

एस एस 4186 कैप्टन पी वी पिल्लै, एस एस एम

(अ) प्रोन्नति हेतु बारह महीने की सेवा का समपहरण  
किया जाए

— 27 जनवरी 2002.

के एस शर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एम एस 8-सी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd February 2003

No. 103, dated 16th January 2003.—The President is pleased to appoint Shri Sanoy Shankar, Section Officer (ad-hoc), borne on the CSS Cadre of Ministry of Finance & Company Affairs, Department of Expenditure, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence w.e.f. forenoon of 1st January, 2003 until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2000.

V. SARASWATHY,  
Under Secy.

## INDIAN MILITARY ACADEMY DEHRADUN

No. 104, dated 20th January 2003.—The President is pleased to appoint Dr GD Goel, as Principal, Group 'A' Gazetted in the Indian Military Academy, Dehradun with effect from 12 Aug 2002 (F/N for the vacancy year 1986.

V. A. CHAVDA,  
Under Secy.

## (ARMY BRANCH)

No. 105, dated 22nd January 2003.—The President is pleased to make the following appointment (DPC) under AI 37/78, as amended vide AI 4/96 :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## (DIRECT PERMANENT COMMISSION)

Lt to be Capt

DR-10538P Lt (Ms) Sheetal Anand, 09-11-2001.

J. L. SHARMA, Lt Gen  
DGDS

No. 106, dated 22nd January 2003.—The President is pleased to make the following appointments under the provision of AI 3/S/70 as amended and AI 12/2001 :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCO is granted Permanent Commission wef 13 Jan 99 in the rank of Lt under the provision of SAI 3/S/70 as amended; but for increments of pay from 09 Mar 91, on relinquishing his SSC wef 13 Jan 99. The date of seniority for promotion is 09 Nov 92 under the provision of AI 12/2001 after giving the loss of seniority for one year with respect to the seniority granted to the batch, due to his opting for grant of permanent commission in the seventh year of his service. His inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

Personal No., New Personal No. Allotted, Name and Arm/Ser  
SS-34785 IC-46911P Jal Singh, AOC.

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission wef 13 Jan 99 in the rank of Lt under the provision of SAI 3/S/70 as amended; but for increments of pay from 25 Aug 90, on relinquishing their SSC wef 13 Jan 99. The date of seniority for promotion is 23 Apr 92 under the provision of AI 12/2001 after giving the loss of seniority for one year with respect to the seniority granted to the batch, due to their opting for grant of permanent commission in

the seventh year of their service. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

Personal No., New Personal No. Allotted, Name and Arm/Ser

SS-34518 IC-46844P Rajendra Kumar Gupta, Arty.

SS-34678 IC-46845X Ravinder Singh Mehra, Arty.

SS-34692 IC-46846A Dharmender Yadav, ASC.

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission wef 13 Jan 99 in the rank of Lt under the provision of SAI 3/S/70 as amended; but for increments of pay from 26 Aug 89, on relinquishing their SSC wef 13 Jan 99. The date of seniority for promotion is 24 Apr 91 under the provision of AI 12/2001 after giving the loss of seniority for one year with respect to the seniority granted to the batch, due to their opting for grant of permanent commission in the seventh year of service. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

Personal No., New Personal No. Allotted, Name and Arm/Ser

SS-34165 IC-46562W Harbaksh Singh Dham, Inf.

SS-34245 IC-46563Y Pradeep Kumar Singh, Inf.

SS-34267 IC-46564F Ajit Rai, ASC.

A. K. S. CHAUHAN,  
Col  
Col MS 7

No. 107, dated 21st January 2003.—The President is pleased to make the following appointments :—

## (REGULAR ARMY)

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned officers of SSC-73 (Non Tech) course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 02 Mar 2002. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 02 Mar 2002 under the provisions of SAI 3/S/98 as amended :—

Name, Personal No. and Arm/Service

Prem Singh Bist SS-39529W, Arty.

Pankaj Maithani SS-39530I, Mech.

Ashwani Kumar SS-39531N, Arty.

Prashant Jotiba Mane SS-39532W, AC.

Amit Mehta SS-39533M, Inf.

Zorawar Singh SS-39534F, Inf.

Sanjeev Kumar Srarma SS-39535K, ADA.

Sagar S Gill SS-39538M, ASC.

Parambath Vinod K Balagopian SS-39537P, Inf.

Suresh Kumar Pandit SS-39533X, Engr.

Longjam Jinkelly Meetei SS-39539A, Inf.

Sandeep K Thapa SS-39540P, EME.

Aditya Wali SS-39541X, Inf.

Fernandes Johpy Rocky SS-39542A, Inf.

Nithin Hariram SS-39543H, Inf.

Chethan Y K SS-39544L, Engr.

Alap Desai SS-39545N, Inf.

Deepak V Sharma SS-39546W, AOC.	Karthik M N SS-39596F, Sigs.
Ajay Kumar Mishra SS-39547Y, Arty.	M Babu SS-39597K, Inf.
Sandeep Nagpal SS-39548F, Arty.	Hari Bhaskar A M SS-39598M, Arty.
Ajit Kumar Rajguru Misra SS-39549K, Inf.	Krishna Kumar Charan SS-39599P, Arty.
Kaushik Tarun Mahesh SS-39550Y, AC.	Adarsh Nayak SS-39600Y, Inf.
Arun Dev Singh Jasrotia SS-39551F, Inf.	✓ Intial Mansuri SS-39601F, ADA.
Ramul Chauhan SS-39552K, Sigs.	Dinesh Singh Bhandari SS-39602K, EME.
Vijish Thankachan SS-39553M, Inf.	Sachin Sharma SS-39603M, AOC.
Aiyappan SS-39555X, ADA.	Amar Deep Yadav SS-39604P, Mech.
Mridul Mishra SS-39556A, Inf.	Abhishek Kumar Jha SS-39605X, AC.
Manjeev Sangwan SS-39557H, ASC.	Praveen Dahiya SS-39606A, Arty.
Vishal Singh Sanga SS-39558L, Mech.	Brijesh Thapa SS-39607H, Inf.
Vaibhav Kaushik SS-39559N, Arty.	Gada Purvesh Vishanji SS-39608L, Inf.
Akshay Kumar SS-39580H, Arty.	Vikas Khanna SS-39609N, Arty.
Sandeep Kumar SS-39581L, Inf.	Jitender Dudi SS-39610H, ADA.
Aditya Singh Rathore SS-39582N, AC.	Dig Vijay Singh Shekhawat SS-39611, EME.
Shivinder Pratap Singh Kanwar SS-39563W, Inf.	Mishra Rahul Bal SS-39612N, Inf.
Arthur Agay Foning SS-39564Y, Inf.	Biju Krishnan SS-39813W, Arty.
Anand SS-39565F, EME.	Ramandeep Sandhu SS-39614Y, AC.
K Senthil Kumar SS-39566K, Arty.	Santosh Kumar Singh SS-39615F, Inf.
Bhannu Pratap Singh SS-39567N, AOC.	D Suraj Kumar D S Rao SS-39616K, Arty.
Prem Kumar Tomar SS-39568P, Sigs.	Vikash Ramachandra Patil (Ghare) SS-39617M, Sign.
Dharmanka Bhupendra Manohar SS-39569X, Inf.	Subin Joseph SS-39618P, Sigs.
Brijendra Singh B Shekhawat SS-39570M, AC.	Pawan Kumar Uniyal SS-39619X, Inf.
Yogesh Chhabra SS-39571P, Inf.	Sukhwant Singh Dhindsa SS-39620M, Inf.
Sugandhit Vikas Bali SS-39572X, Engr.	Rohit Solanki SS-39621P, Inf.
Sherap Dorjee Bhutia SS-39573A, Inf.	Vishwanath SS-39622X, Engr.
Mridumoy Dutta SS-39574A, Arty.	Birendra Kumar Pushkar SS-39623A, Arty.
Kandal Gaonkar Tapan Sushil SS-39575L, Sigs.	Augustine Anthony Muthu SS-39624, Inf.
Patil Mahesh Mohanrao SS-39577W, Inf.	N Vinod SS-39625L, Inf.
Amar Inder Brar SS-39578Y, AC.	Anand Kumar Singh SS-39626N, Inf.
Partha Pratim Dutta SS-39579F, Engr.	Vikram Singh Bora SS-39627W, Inf.
Fulsunge Parimal Eshwalal SS-39580W, Arty.	MD Anwaruddin Sheriff SS-39628Y, Inf.
Vivek Chaudhary SS-39581Y, Arty.	Badal Kaushik SS-39629F, ADA.
Jadhav Santosh Kumar Rangrao SS-39582F, Inf.	Shantanu Krishna SS-39630W, Arty.
Jadhav Mahesh Vaishnu SS-39583K, AC.	M V Vipin SS-39631Y, ASC.
Karan Vasishth SS-39584M, Inf.	Tapan Singh Tomar SS-39632F, Mech.
Rohit Chauhan SS-39585P, Inf.	Ripple Boruwa SS-39633K, Arty.
Arundhan Barchan SS-39586X, Inf.	Mahendra Kumar Joshi SS-39634M, ASC.
Sidary Patil SS-39587A, Engr.	Bisht Abhay Dhawan Chandra SS-39636X, AOC.
Sunil Kumar SS-39588H, Mech.	Neeraj Kumar SS-39637A, Inf.
Sanjeev Kumar Dogra SS-39589L, ASC.	Salil Mohan SS-39638H, ADA.
Anurag Aier SS-39590A, Inf.	D Deepak Raj SS-39639L, Inf.
Virmani Manu Chandermohan SS-39591H, Inf.	Rajiv Menon SS-39640A, Inf.
Hemant Lohan SS-39592L, Arty.	Deepu K SS-39641H, Inf.
Patil Ashwin Suryakanth SS-39593N, Int.	Shiv Kumar SS-39642L, EME.
J Solwyn Clement Christopher SS-39594W, Engr.	Saurabh Rawat SS-39643N, Inf.
Rajiv Ranjan Thakur SS-39595Y, Sigs.	Abhijeet Mishra SS-39644W, Inf.

Ajay Kumar SS-39645Y, Inf.  
 Rajesh Giri SS-39646F, Inf.  
 Ray Ratnadeep Sibamoy SS-39647K, Inf.  
 Deep Chandra Malkani SS-39648M, ADA.  
 Mukesh Kumar Taank SS-39649P, Arty.  
 P Prabhu Raj SS-39650K, Arty.  
 Ajay Singh SS-39651M, Inf.  
 Thongbam Dijen Singh SS-39652P, Inf.  
 Shrish Shukla SS-39653X, AOC.  
 Sanjit Tewari SS-39654A, Inf.  
 Ashish Jhingan SS-39655H, Inf.  
 Gourav Arora SS-39656L, Arty.  
 Arpan Chowdhury SS-39657N, Inf.  
 Vikrant Mankotia SS-39658W, EME.  
 Kakkassery Vineet Johny SS-39659Y, ADA.  
 B M Cariappa SS-39660N, Arty.  
 Ramesh Kumar SS-39661W, Inf.  
 Kunal Sharma SS-39662Y, Inf.  
 Mantaj Singh Cheema SS-39663F, Arty.  
 Paishal Manocha SS-39664K, Inf.  
 Vivek Anand Singh SS-39666P, Inf.  
 Prashant Jhala SS-39667X, Inf.  
 Asif Abbas SS-39668A, Inf.  
 Martand Misra SS-39669H, Arty.  
 Dinesh Singh Thakur SS-39670X, Inf.  
 Gajender Singh Shekhawat SS-39671A, Inf.  
 Vinod Joshi SS-39672H, Inf.  
 Divyamani Shukla SS-39674N, Engr.  
 Shailendra Singh Shekhawat SS-39675W, AC.  
 Anurag Sharma SS-39676Y, Sigs.  
 R Prashant Kumar Varma SS-39677F, Arty.  
 Siddharth Virmani SS-39678K, Sigs.  
 Man Singh SS-39679M, Engr.  
 James Thomas SS-39680F, Inf.  
 Fakir Abbas SS-39681K, AC.  
 Vishwas P SS-39682M, Engr.  
 Madhvendra Singh SS-39683P, EME.  
 Rakesh Sharma SS-39684X, ADA.  
 Mayank Tiwari SS-39685A, Mech.  
 Sanjeet S Giani SS-39686H, Inf.  
 Davinder Sanga SS-39687L, Arty.  
 Maibam London Singh SS-39688N, Inf.  
 Vikas Tyagi SS-39690L, ASC.  
 Anmol Singh Dhaliwal SS-39691N, Arty.  
 Gagandeep Singh Bhalla SS-39692W, Inf.

Aditya Kapoor SS-39693Y, AC.  
 Ranjit H S SS-39695K, Inf.  
 Saurabh Vikas SS-39698X, Inf.

S. S. DHANKHAR,  
 Lt Col  
 AMS-8B

#### NAVY BRANCH NAVAL HEADQUARTERS

No. 108, dated 17th January 2003.—The President is pleased to appoint Shri JS Joshi, Joint Director of AFHQ Civil Service as Director (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 for a period from 10-10-2002 to 02-4-2003 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA,  
 Dy Chief Administrative Officer (A)

#### AIR HEADQUARTERS

No. 109, dated 17th January 2003.—The President is pleased to appoint the following Assistants as officiating Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-10500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from the date mentioned against each till 24 Feb 2003 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier:

Name, Date of appointment as Section Officer  
 (S/Shri)

Sunder Lal, 29 Aug 2002.  
 Raj Singh, 29 Aug 2002.  
 Rajendra Prasad, 29 Aug 2002.  
 Smt Usha Kiran, 29 Aug 2002.  
 Harish Kumar, 29 Aug 2002.  
 Rattan Lal Gupta, 27 Sep 2002.  
 Rajesh Dixit, 27 Sep 2002.  
 SP Dargan, 28 Oct 2002.  
 S R Venugopal, 28 Oct 2002.

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA,  
 Dy Chief Administrative Officer (A)

#### (ARMY BRANCH)

No. 110, dated 16th January 2003.—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub Maj

PA Sub Maj Duli Chand (JC-206078L), 01st Aug 2002 @

PA Sub Maj Lakshmanan K (JC-206080H), 01st Jul 2002.

@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Jul 2002 without effect on pay and allowances).

PA Sub Maj Ramachandran KC (JC-206096N), 01st Aug 2002.

PA Sub Maj Sunil Kumar Paul (JC-206098Y), 01st Aug 2002.

PA Sub Maj Kailash Chandra Sharma (JC-206081L), 19th Aug 2002.\*

PA Sub Maj Rajvir Singh (JC-206799P), 05th Aug 2002.\*

PA Sub Maj Man Mohan Kala (JC-206082N), 26th Aug 2002.\*

PA Sub Maj Dhanwant Singh (JC-206152F), 24th Aug 2002.\*

PA Sub Maj Amar Dass (JC-206153K), 01st Aug 2002.

PA Sub Maj Ganga Singh (JC-206101N), 02nd Aug 2002.\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Aug 2002 without effect on pay and allowances).

PA Sub Maj Benarsi Lal (JC-211919M), 01st Sep 2002.

PA Sub Maj Rama Nath Dash (JC-206102W), 13th Sep 2002.†

PA Sub Maj Ansuya Prasad (JC-206083W), 01st Sep 2002.

PA Sub Maj Randhir Singh (JC-206344Y), 01st Sep 2002.

†(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Sep 2002 without effect on pay and allowances).

PA Sub Maj/Cik Khyali Ram (JC-802457L), 01st Oct 2002.

#### To be Subedar

PA Sub Naveen Chandra Pant (JC-802391W), 10th Feb 2002.@

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Feb 2002 without effect on pay and allowances).

PA Sub Satish Kumar (JC-802409F), 21st May 2002.†

PA Sub Sushil Kumar Gupta (JC-802411Y), 01st Mar 2002.

†(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Mar 2002 without effect on pay and allowances).

PA Sub Mayur Dhawaj Naithani (JC-802444K), 09th May 2002.\$

PA Sub Dilip Kumar Debnath (JC-802451A), 06th Apr 2002.\$

\$(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Apr 2002 without effect on pay and allowances).

PA Sub/Cik Rajpal Singh (JC-802751F), 01st Aug 2002.

PA Sub/Cik Balakrishnan P (JC-802752K), 01st Aug 2002.

PA Sub/Cik Suresh Kumar Thakur (JC-802753M), 01st Sep 2002.

PA Sub/Cik Rasidul Islam Choudhury (JC-802754P), 01st Sep 2002.

PA Sub/Cik Sudarshan Mandal (JC-802755X), 01st Oct 2002.

PA Sub/Cik Susanta Kumar Koley (JC-802756A), 01st Oct 2002.

#### To be Naib Sub

Hav Shankar Mani Semwal (No. 9509146L now JC-803355X), 17th Jul 2002.@

Hav Anil Kumar (No. 9509147N now JC-803356A), 01st Jul 2002.@

Hav Arvind Kumar Choudhary (No. 9509148W now JC-803357H), 01st Jul 2002.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Gurdev Singh Verma (No. 9509149Y now JC-803358L), 1st Aug 2002.

Hav Prakash Kumar Awasthi (No. 9509153F now JC-803359N), 01st Aug 2002.

Hav Anil Kumar Prasad (No. 9509155M now JC-803360H), 01st Aug 2002.

Hav Om Prakash Singh (No. 9509156P now JC-803361L), 03rd Aug 2002.†

Hav/Cik Rakesh Bhandari (No. 9508273N now JC-803362N), 01st Aug 2002.

Hav/Cik Mukesh (No. 9508274W now JC-803363W), 01st Aug 2002.

†(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Bhakti Kanta Sahoo (No. 9509159H now JC-803364Y), 02nd Sep 2002.\$

Hav Satbir Singh (No. 9509162H now JC-803365F), 08th Sep 2002.\$

Hav Krishna Deo Tiwari (No. 9509163L now JC-803366K), 01st Sep 2002.

Hav Girja Shankar Singh (No. 9509168K now JC-803367M), 01st Sep 2002.

Hav Madan Singh Chaudhari (No. 9509171K now JC-803368P), 01st Sep 2002.

Hav/Cik Nirmal Singh (No. 9508279P now JC-803369X), 01st Sep 2002.

Hav/Cik Gurnam Singh (No. 9508281M now JC-803370M), 02nd Sep 2002.\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 2002 without effect on pay and allowances).

Hav/Cik Harish Singh Rautela (No. 9508282P now JC-803375L), 11th Oct 2002.\*

Hav/Cik Jagrup Singh Yadav (No. 9508287N now JC-803377W), 11th Oct 2002.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 2002 without effect on pay and allowances).

V. K. KAPOOR  
Under Secy.

No. 111, dated 17th January 2003.—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### REGIMENT OF ARTILLERY

#### To be Naib Subedar

Hav Beenappa Avaragol (14460580N now JC-264706A), 27 May 2002/01 Sep 2001.\*

BHM Rama Dasan K (14458331W now JC-264707H), 27 May 2002/01 Jan 2002.\*

RHM Moghan D (14329134W now JC-264708L), 25 May 2002/11 Jan 2002.\*

Hav Subhas Kori (14361567F now JC-264709N), 06 Jul 2002/01 Mar 2002.\*

Hav Parmanand SM (14361272I now JC-264710H), 08 Jun 2002/15 Mar 2002.\*

Hav Chandsi Prasad Singh (14489886Y now JC-264711L), 18 May 2002/18 Mar 2002.\*

BHM Rajendran (14343622K now JC-264712N), 26 Apr 2002/01 Apr 2002.\*

BHM Shibu Kurian T (14462552A now JC-264713W), 25 Jun 2002/01 Apr 2002.\*

BHM Daya Nand Yadav (14459213P now JC-264714Y), 09 May 2002/01 Apr 2002.\*

Hav Amar Singh (14457220M now JC-264715F), 27 May 2002/01 Apr 2002.\*

BHM Satvabir Singh (14470879N now JC-264716K), 25 May 2002/21 Apr 2002.\*

GHM Purnadhar Ray (14349427H now JC-274717M), 06 Jun 2002/24 Apr 2002.\*

Hav Demodaran G (14469277N now JC-274718P), 25 May 2002/01 May 2002.\*

Hav Mahesh Pal Singh (14465369Y now JC-264719X), 01 Jun 2002.

Hav Gorrepaty Kotaiah (14345449K now JC-264720M), 08 Jun 2002/01 Jun 2002.\*

BHM Satvavir Singh (14463072H now JC-264721P), 18 Jun 2002/01 Jun 2002.\*

Hav Naravan Singh (14456425P now JC-264722X), 12 May 2002/02 Oct 2001.\*

BHM Milao Chand (14473820Y now JC-264723A), 16 Jun 2002/01 Feb 2002.\*

Hav Sukh Ram Singh (14466136N now JC-264724H), 03 Jun 2002/14 Apr 2002.\*

Hav Puran Singh (14345080K now JC-264725L), 19 May 2002/14 Apr 2002.\*

Hav Dharmvir (14479705P now JC-264726N), 05 Aug 2002/01 May 2002.\*

Hav Ram Premod Sharma (14341628M now JC-264727W), 18 Jun 2002/18 May 2002.\*

Hav Hari Bandhu Pradhan (14464605M now JC-264728Y), 20 Jun 2002/31 May 2002.\*

BHM Pawar Kalvan Dharmaji (14466808P now JC-264729F), 08 Jun 2002/01 Jun 2002.\*

RHM Laxman Singh (14461152F now JC-264730W), 18 Jun 2002/01 Jun 2002.\*

BHM K Srinivasan (14483515A now JC-264731Y), 10 Jun 2002/01 Jun 2002.\*

Hav Manjit Singh (14340430F now JC-264732F), 31 Jul 2002/01 Jul 2002.\*

Hav Jagtan Deelip Kautik (14353829X now JC-264733K), 03 Jul 2002/01 Jul 2002.\*

\*(Granted seniority wef).

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Harankal Vithal Raoji (JC-260207N), 06 Nov 2001/01 Jul 2001.\*

Nb Sub Rameshwar Singh (JC-258449X), 28 Nov 2001/01 Aug 2001.\*

Nb Sub Dharma Raj (JC-260780K), 21 Jan 2002/01 Aug 2001.\*

Nb Sub Om Prakash (JC-261204M), 29 Dec 2001/01 Aug 2001.\*

Nb Sub Hakam Singh (JC-260040P), 02 Nov 2001/22 Aug 2001.\*

Nb Sub Perumal Narayana (JC-262023N), 05 Jan 2002/01 Sep 2001.\*

Nb Sub Kan Singh (JC-262647A), 06 Oct 2001/01 Sep 2001.\*

Nb Sub Anoop Singh (JC-262076M), 03 Apr 2002/04 Sep 2001.\*

Nb Sub Rajender Singh (JC-258886X), 01 Oct 2001.

Nb Sub Anant Ram Sharma (JC-259743K), 06 Oct 2001/01 Oct 2001.\*

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-260417N), 04 Nov 2001/01 Nov 2001.\*

Nb Sub Salinder Singh (JC-261576X), 29 Dec 2001/01 Nov 2001.

Nb Sub Amir Singh (JC-261816K), 01 Jan 2002/01 Nov 2001.\*

Nb Sub Bhilare Laxman Baburao (JC-261511K), 23 Dec 2001/01 Nov 2001.\*

Nb Sub Sudarsana Kumar SG (JC-261708A), 01 Nov 2001.

Nb Sub Desh Raj (JC-261548L), 13 Jan 2002/01 Nov 2001.\*

Nb Sub Prakash Dagadu Patil (JC-261499N), 26 Dec 2001/01 Nov 2001.\*

Nb Sub Nābab Singh (JC-261814Y), 19 Nov 2001/01 Nov 2001.\*

Nb Sub Randhir Singh (JC-262109W), 01 Nov 2001.

Nb Sub Uma Shankar Pandey (JC-261003N), 01 Nov 2001.

Nb Sub Sanwal Singh (JC-262161P), 26 Jan 2002/01 Nov 2001.\*

Nb Sub Nikhil Chandra Ray (JC-261962K), 01 Nov 2001.

Nb Sub Dikaram Pal (JC-257531A), 11 Jan 2002/25 Nov 2001.\*

Nb Sub Ram Singh (JC-257075A), 14 Jan 2002/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Ram Bharose Singh (JC-257919L), 04 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Mahendra Singh (JC-257814F), 01 Jan 2002/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Baldev Singh (JC-257950X), 26 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub A Kaliya Moorthy (JC-258934A), 17 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub MVL Narayana Rao (JC-258244H), 01 Dec 2001.

Nb Sub Amrit Lal (JC-258314W), 16 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Gaya Prasad (JC-258501P), 10 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Sulakhan Singh (JC-259042N), 01 Dec 2001.

Nb Sub Gurmail Singh (JC-260054P), 01 Dec 2001.

Nb Sub Nidhi Ram Ghosh (JC-258965M), 27 Feb 2002/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Bhuvneshwar Singh (JC-259651X), 04 Feb 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Baldev Singh (JC-259356P), 01 Dec 2001.

Nb Sub Thaman Bahadur Pun (JC-259236H), 01 Dec 2001.

Nb Sub Sher Singh Rana (JC-260055X), 08 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Chandra Mani Khandure (JC-260478L), 02 Jan 2002/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Rajender Singh (JC-259910P), 26 Apr 2002/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Surinder Singh (JC-260783X), 23 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Joginder Singh Narayal (JC-261023F), 15 Jan 2002/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Tajinder Singh (JC-260898L), 29 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Gundluru Madraih (JC-261610M), 01 Dec 2001.

Nb Sub Madan Singh (JC-261564H), 12 Dec 2001/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Mahadik Vilas Anandrao (JC-261682W), 25 Feb 2002/01 Dec 2001.\*

Nb Sub Ram Pratap (JC-257823H), 25 Jan 2002/19 Dec 2001.\*

Nb Sub Mahavir Singh (JC-257142A), 02 Mar 2002/01 Jan 2002.\*

Nb Sub Mehnga Singh (JC-257667K), 01 Jan 2002.

Nb Sub Bala Ram Naik N (JC-259484M), 20 Mar 2002/01 Jan 2002.\*

Nb Sub Hem Raj Sharma (JC-257505Y), 01 Jan 2002.

Nb Sub Ram Krishan (JC-258295W), 17 Jan 2002/01 Jan 2002.\*

Nb Sub Ashok Kumar Yadav (JC-259210F), 01 Jan 2002.

Nb Sub Subramaniam M (JC-259639W), 25 Feb 2002/01 Jan 2002.\*

Nb Sub Tota Ram (JC-259454P), 11 Feb 2002/01 Jan 2002.\*

Nb Sub Man Singh (JC-260029W), 29 Jan 2002/01 Jan 2002.\*

Nb Sub Mohanan Pillai G (JC-259848N), 11 Jan 2002/01 Jan 2002.\*

Nb Sub Jaswant Singh (JC-260269N), 01 Jan 2002.

\*(Granted ante date seniority).

#### To be Nb Subedar (Clk GD/SKsT)

Hav. (SKT) Bhonu Prasad (No. 14356685L now JC-263883N), 01 Apr 2001.

Hav (Clk) Indra Deo Singh (No. 14336633N now JC-264618K), 01 Apr 2002.

Hav (SKT) Pritam Chand (No. 14347059A now JC-264653M), 01 Jul 2002.

Hav (Clk) Ghadg Mahadeo Shivaram (No. 14356812P now JC-264654P), 01 Aug 2002.

Hav (Clk) Jagat Narayan Singh (No. 14474908P now JC-264655X), 01 Aug 2002.

Hav (Clk) Bajrang Singh Chauhan (No. 14499612F now JC-264619M), 01 Aug 2002.

Hav (Clk) Lalit Mohan (No. 15102771P now JC-264656A), 01 Aug 2002.

Hav (Clk) Bhagat Singh (No. 14482269N now JC-264620F), 01 Aug 2002.

#### CORPS OF AD ARTILLERY

##### To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Subedar Rajinder Paul (JC-171081K), 01 Nov 2002/01 Oct 2002.\*

Subedar Nand Kishore Yadava (JC-175586X), 20 Nov 2002/01 Nov 2002.\*

##### To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Lal Chand Yadav (JC-297714Y), 12 Oct 2002/01 Jul 2002.\*

Nb Sub Raghuwar Singh (JC-297609H), 10 Oct 2002/15 Jul 2002.\*

Nb Sub Rajani Raj Khowa (JC-297826Y), 14 Nov 2002/15 Jul 2002.\*

Nb Sub Kailash Chander Sharma (JC-297616Y), 14 Sep 2002/25 Jul 2002.\*

Nb Sub Amin Chand (JC-297710H), 12 Sep 2002/25 Jul 2002.\*

Nb Sub Bir Mangal Singha (JC-297779M), 21 Sep 2002/29 Jul 2002.\*

Nb Sub Mani K (JC-297715F), 08 Oct 2002/01 Aug 2002.\*

Nb Sub Akhil Chandra Barman (JC-297681Y), 20 Nov 2002/27 Aug 2002.\*

Nb Sub Raj Kanwar Vashist (JC-296423M), 09 Oct 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Sanwar Mal (JC-296623H), 01 Sep 2002.

Nb Sub Ram Sewak Mishra (JC-297011X), 17 Sep 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Daljit Singh (JC-297001N), 10 Sep 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Vijay Singh (JC-297101Y), 01 Sep 2002.

Nb Sub Bharat Kumar Pramanick (JC-297150F), 03 Oct 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Jiten Chandra Baruah (JC-297382A), 01 Sep 2002.

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-297355W), 01 Dec 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Prabhu Singh (JC-297390Y), 01 Sep 2002.

Nb Sub Prakash Chand (JC-297424F), 16 Sep 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Amar Nath Singh (JC-297508P), 07 Sep 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Ranvir Singh (JC-297643H), 04 Sep 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Prani Datt (JC-297675L), 02 Sep 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Sube Singh (JC-297651F), 15 Oct 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Gangadhar Tigadi (JC-297679F), 01 Sep 2002.

Nb Sub Yohannan KU (JC-297755H), 11 Oct 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub A Jeya Chandran (JC-297756L), 24 Sep 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Khirrod Chandra Das (JC-297743N), 15 Sep 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub S Seenivasan (JC-297904L), 01 Sep 2002.

Nb Sub Ramanujan Nair V (JC-297912K), 26 Oct 2002/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Rameshwar Lal Sharma (JC-297752P), 05 Oct 2002/03 Sep 2002.\*

Nb Sub Karthikaa Rajan PB (JC-297453W), 01 Oct 2002/08 Sep 2002.\*

Nb Sub P Sukumaran (JC-296807F), 09 Oct 2002/01 Oct 2002.\*

Nb Sub Bhim Singh (JC-297189N), 01 Oct 2002.

Nb Sub Bimal Aind (JC-297057A), 08 Oct 2002/01 Oct 2002.\*

Nb Sub Palwinder Singh (JC-297343F), 31 Oct 2002/01 Oct 2002.\*

Nb Sub Satyavir Singh Yadav (JC-297877M), 12 Oct 2002/01 Oct 2002.\*

Nb Sub Umesh Chandra Das (JC-297911F), 20 Nov 2002/01 Oct 2002.\*

Nb Sub Pavananjay Doddamane (JC-297045L), 01 Nov 2002.

Nb Sub Ram Singh Saklani (JC-297008X), 01 Nov 2002.

Nb Sub Anand Singh (JC-296956P), 01 Nov 2002.

Nb Sub Rathod Prabhat Singh (JC-297275Y), 01 Nov 2002.

Nb Sub Dilbag Singh (JC-297541M), 13 Nov 2002/01 Nov 2002.\*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Jaipal Singh (JC-297226W), 01 Nov 2002.

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Kunjumon M (JC-296577Y), 01 Nov 2002.

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Suresh Upadhyaya (JC-255047P), 24 Nov 2002/01 Nov 2002.\*

\*(Gtd ante-date seniority wef).

RAJENDRA CHATURVEDI  
Under Secy.

No. 112, dated 22nd Jan 2003.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against them :—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Divaspathi Salimath (MS-13322L), (MR-07789N), AMC, 6-10-2001.

Gautam Mullick (MR-07027-A), AMC, 30-6-2002.

Vidya Bhusan Shukla (MR-07582-N) (MS-13055-H), AMC, 14-1-2000.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 04 Aug 2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Sandeep Kumar Gupta (MS-13205-N) now (MR-07812-W), AMC, 12-11-2000.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12-1-2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Shoukat Ali (MS-13087-L) (MR-07772-A), AMC, 14-1-2000.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 01-12-2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Sandeep Gupta (MR-07780Y) (MS-13517K) AMC, 03-10-2001.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 11-05-2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Mrs Raashi Chadha (MR-07781-F) (MS-13590-N), AMC, 10-04-2002.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12 Oct 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Lt to be Capt

(Mrs) Richa Ranjan (MR-07405-N), AMC, 15-2-2001.

To be Surg Lt

Sachin Tanja (MR-07628-L) (75764-R), AMC, 16-7-2002.

KBNS DOD, Brigadier  
Dy. DGAFMS (P)

No. 113, dated 21st January 2003.—The President is pleased to make the following substantive promotion(s) :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Gp Capt to be Air Cmde

JK De (MR-3203P) (AF-12210L) AMC/PC, 13-11-2000 (notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-08-2000).

SP Kapoor (MR-2469P) (AF-11928G) AMC/PC, 13-11-2000 (notional seniority without any effect on his pay and pension from 03-11-2000).

ANJULA NAIB  
SCSO  
Dir AFMS (P)

No. 114, dated 22nd January 2003.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Substantive Lt Col (By selection)

BS Rathee IC-35942, 01 Jan 2000.

Shekhar Naidu IC-35943, 01 Jan 2000.

Prem Sagar IC-35944, 01 Jan 2000.

R Jasial IC-35945, 01 Jan 2000.

BS Deol IC-35946, 01 Jan 2000.

NK Misra IC-35947, 01 Jan 2000.

RS Sangwan IC-35949, 01 Jan 2000.

P Raman IC-35952, 01 Jan 2000.

AL Chavan IC-35953, 01 Jan 2000.

Sharad Khattar IC-35954, 01 Jan 2000.

Amrik Singh IC-35955, 01 Jan 2000.

AS Sangwan IC-35956, 01 Jan 2000.

IS Birman IC-35957, 01 Jan 2000.

AK Pathak IC-35958, 01 Jan 2000.

BS Adhikari IC-35959, 01 Jan 2000.

SK Patyal IC-35960, 01 Jan 2000.

LK Pandey IC-35962, 01 Jan 2000.

SMG Gadkar IC-35963, 01 Jan 2000.

RR Nimbhorkar IC-35965, 01 Jan 2000.

Shamsher Singh IC-35967, 01 Jan 2000.

RC Katoch IC-35969, 01 Jan 2000.



AK Jayachandran IC-35970, 01 Jan 2000.  
 NR Mitra IC-35971, 01 Jan 2000.  
 SD Mangawa IC-35972, 01 Jan 2000.  
 SR Phatak IC-35974, 01 Jan 2000.  
 DK Tripathi IC-35975, 01 Jan 2000.  
 PR Deshpande IC-35976, 01 Jan 2000.  
 DK Rawal IC-35977, 01 Jan 2000.  
 Amarjit Singh IC-35978, 01 Jan 2002.  
 JS Suraj IC-35979, 01 Jan 2000.  
 NS Bawa IC-35981, 01 Jan 2000.  
 SB Chavan IC-35982, 01 Jan 2000.  
 Anurag Gupta IC-35983, 01 Jan 2000.  
 AK Ghosh IC-35984, 01 Jan 2000.  
 Rajiv Anand IC-35985, 01 Jan 2000.  
 BN VijayKumar IC-35986, 01 Jan 2000.  
 DR Soni IC-35987, 01 Jan 2000.  
 Ajay Ahlawat IC-35988, 01 Jan 2000.  
 SPS Kunwar IC-35989, 01 Jan 2000.  
 AS Chitchot IC-35992, 01 Jan 2000.  
 RK Saxena IC-35993, 01 Jan 2000.  
 DV Choudhary IC-35995, 01 Jan 2000.  
 Hardit Singh IC-35996, 01 Jan 2000.  
 Harsha Kakar IC-35998, 01 Jan 2000.  
 KK Arun IC-38001, 01 Jan 2000.  
 Badal Verma IC-38002, 01 Jan 2002.  
 PP Oka IC-38006, 01 Jan 2000.  
 A Khan IC-38007, 01 Jan 2000.  
 GS Multani IC-38008, 01 Jan 2000.  
 PK Srivastava IC-38011, 01 Jan 2000.  
 Ravinder Singh IC-38012, 01 Jan 2000.  
 Vinod K Pillai IC-38013, 01 Jan 2000.  
 DP Singh IC-38014, 01 Jan 2000.  
 HK Ahluwalia IC-38016, 01 Jan 2000.  
 S Venugopal IC-38018, 01 Jan 2000.  
 C Ramachandran IC-38019, 01 Jan 2000.  
 R Chhibber IC-38020, 01 Jan 2000.  
 LN Singh IC-38024, 01 Jan 2000.  
 Ravinder Singh IC-38025, 01 Jan 2000.  
 VK Tewari IC-38026, 01 Jan 2000.  
 UP Sinha IC-38027, 01 Jan 2000.  
 Sunil Bhandari IC-38028, 01 Jan 2000.  
 SS Hango IC-38029, 01 Jan 2000.  
 Jimmy John IC-38030, 01 Jan 2000.  
 Devinder Singh IC-38031, 01 Jan 2000.  
 AD Nargolkar IC-38032, 01 Jan 2000.  
 AV Kumar IC-38036, 01 Jan 2000.  
 Narinder Singh IC-38038, 01 Jan 2000.  
 Chandra Shekhar IC-38043, 01 Jan 2000.

P Sachdeva IC-38044, 01 Jan 2000.  
 Anil Malik IC-38049, 01 Jan 2000.  
 Ramesh Khosla IC-38050, 01 Jan 2000.  
 MK Gupta IC-38059, 01 Jan 2000.  
 BK Pande IC-38060, 01 Jan 2000.  
 AK Nair IC-38063, 01 Jan 2000.  
 Diponkar Ray IC-38066, 01 Jan 2000.  
 SK Attari IC-38068, 01 Jan 2000.  
 SK Sharma IC-38071, 01 Jan 2000.  
 AS Patial IC-38073, 01 Jan 2000.  
 JS Sekhon IC-38074, 01 Jan 2000.  
 RS Yadava IC-38075, 01 Jan 2000.  
 ME Haque IC-38089, 01 Jan 2000.  
 JS Manral IC-38090, 01 Jan 2000.  
 AS Pinto IC-38093, 01 Jan 2000.  
 N Ramgopal IC-38096, 01 Jan 2000.  
 AK Pant IC-38097, 01 Jan 2000.  
 SS Lather IC-38103, 01 Jan 2000.  
 MS Kukshal IC-38105, 01 Jan 2000.  
 JS Sahi IC-38108, 01 Jan 2000.  
 RG Laxman IC-38111, 01 Jan 2000.  
 AK Roy IC-38114, 01 Jan 2000.  
 GS Batabyal IC-38118, 01 Jan 2000.  
 Pronob Ganguly IC-38120, 01 Jan 2000.  
 Nireesh Rathore IC-38122, 01 Jan 2000.  
 DKK Naphade IC-38125, 01 Jan 2000.  
 NK Yadav IC-38131, 01 Jan 2000.  
 KG Ramesh Kumar IC-38134, 01 Jan 2000.  
 G Subramanian IC-38135, 01 Jan 2000.  
 Vinod Cherian IC-38153, 01 Jan 2000.  
 GJ Singh (IC-33447), AC, 01 Aug 1996.

#### Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

IC-37872 VB Mark, Mech Inf, 27-04-2002.  
 IC-37915 R Singh, AOC, 27-04-2002.  
 IC-40159 A Sahai, Inf, 19-12-2001.  
 IC-40310 KR Dhaka, Sigs, 12-06-2001.  
 IC-40589 T Hoda, AC, 12-06-2002.  
 IC-40414 Neeraj Kumar, Mech Inf, 13-06-2002.  
 IC-40449 B Talwar, AOC, 12-06-2002.  
 IC-40470 AT Saxena, Ad Arty, 12-06-2002.  
 IC-42253 TK Sasidharan, Engrs, 13-06-2002.  
 IC-40473 P Thapa, Mech Inf, 13-06-2002.  
 IC-40544 S Kumar Inf, 12-06-2002.  
 IC-40551 AS Negi, Inf, 12-06-2002.  
 IC-40557 RA Bhad, Inf, 12-06-2002.  
 IC-40577 Ajay Singh, Inf, 12-06-2002.  
 IC-40631 K Nayan, Inf, 12-06-2002.

IC-40642 Alok Mathur, EME, 12-06-2002.  
 IC-40643 NS Aswal, Inf, 12-06-2002.  
 IC-40630 P Chandra, Inf, 12-06-2002.  
 IC-40635 D Singh, Arty, 12-06-2002.  
 IC-40379 Mahendra Bhati, Ad Arty, 12-06-2002.  
 IC-40386 DS Pandey, Inf, 12-06-2002.  
 IC-40397 VS Patil, AOC, 12-06-2002.  
 IC-30938 HD Anal, ASC, 22-06-1996.  
 IC-40491 AS Bajwa, AC, 12-06-2002.  
 IC-40372 R Singh AOC, 12-06-2002.  
 SL-02929 RS Sangwan, SL (RO), 22-07-2002.  
 SL-02906 PRK Nair, SL (RO), 22-07-2002.  
 SL-02963 RS Bal Wada, SL (CIP), 22-07-2002.  
 SL-02982 Uma Kant, SL (AE), 22-07-2002.  
 SL-02923 Ram Kanwar, SL (RO), 22-07-2002.  
 SL-02938 GVN Rao, SL (AO), 22-07-2002.  
 SL-02966 Ved Prakash SL (CIP), 22-07-2002.  
 SL-02971 Virpal Singh SL (CIP), 26-07-2002.  
 SL-02927 Gurmel Singh, SL (RO), 22-07-2002.  
 SL-02970 BL Saini, SL (CIP), 22-07-2002.  
 SL-02958 Bahadar Singh, SL (TOT), 22-07-2002.  
 IC-39318 DK Thakur, Inf, 13-12-2000.  
 IC-39255 SS Sajwan, Arty, 13-12-2000.

LMC/81 (Jul—Dec)

IC-39954 Rajesh Tiwari, Inf, 19-12-2001.

LMC/82 (Jan—Jun)

IC-40451 RKS Suhag, Inf, 12-6-2002.

IC-40605 H Sharma, Inf, 12-06-2002.

IC-40559 Ravinder Singh, Mech Inf, 13-6-2002.

SS SINHA  
Dy. Dir.  
DAMS-8A

No. 115, dated 21st Jan 2003.—The President is pleased to make the following promotion :—

**REGULAR ARMY**  
**PERMANENT COMMISSION (SL)**

Capt to be Maj

SL-3900 AS Shekhawat, 12 Apr 2002.

KS VERMA  
Jt. Dir.  
MS-8C

**AIR FORCE**

No. 116 dated 22nd Jan 03.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

**INDIAN AIR FORCE**

Admin Branch

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr Rank

Flt Lt R Sebastian (BC-19008), 19 September 1999.

**EDN BRANCH**

Fg Offr to be Subs Flt Lt Rank

Fg Offr R Sangwan (21375), 16 September 1996.

SV KUTE  
Sqn Ldr  
ADPO 3 (D)

**(ARMY BRANCH)**

No. 117, dated 22nd Jan 03.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short Service Commission in the Army Medical Corps wef 4-8-2000 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

**(REGULAR ARMY)**

**(PERMANENT COMMISSION)**

To be Capt (On Prob)

Vidya Bhusan Shukla (MS-13055-H) now (MR-07582-N) AMC, with seniority for pay and promotion wef 13-06-1995.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 01-05-1999 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 06-12-2000 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

**(REGULAR ARMY)**

**(PERMANENT COMMISSION)**

To be Capt (on Prob)

Sandeep Kumar Gupta (MS-13205N) Now (MR-07812W), AMC 12-05-1997 with seniority for pay and promotion wef 12-11-1996 (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity).

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 13-9-2000 in so far as it relate to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 24-09-2001 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

**(REGULAR ARMY)**

**(PERMANENT COMMISSION)**

To be Capt (on Prob)

Vichare Nitin Vasant (MS-13458H) (MR-07777Y), AMC, with seniority for pay and promotion wef 12-02-1999.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 5-2-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Anup Krishna Janakiram (MS-13459L) now (MR-07776 W), AMC, with seniority for pay and promotion wef 12-02-1999.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 25-03-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Awadesh Kumar Singh (MS-13785N) Now (MR-07778M), AMC, with seniority for pay and promotion wef 1-3-1999

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 23-09-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Shoukat Ali (MS-13087L) (MR-07772A), AMC, 14-09-1995, with seniority for pay and promotion wef 14-03-1995. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity).

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30-10-1999 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled).

Kulvinder Singh (MS-13447W) now (MR-07775N), AMC, with seniority for pay and promotion wef 1-1-1999.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18-12-1999 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 04-12-2001 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)  
(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (on Prob)

Manpreet Kaur Basra (MS-13270N) (MR-07779K), AMC, 08-09-1997, with seniority for pay and promotion wef 08-03-1997. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity).

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 9-3-2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Sandeep Gupta (MS-13517K) Now (MR-07780Y), AMC, with seniority for pay and promotion wef 03-10-1997.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05-02-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

S Gopinath (MS-13783H) (MR-07791L), AMC, with seniority for pay and promotion wef 25-08-1999.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 23-09-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

A V K Raju (MS-13853W) (MR-07786A), AMC, with seniority for pay and promotion wef 23-02-1999.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 08-09-2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Ritesh Kulkarni (MS-13632-K) (MR-07787-L), AMC, with seniority for pay and promotion wef 09-07-1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 08-09-2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Mrs. Raashi Chadha (MS-13590-N) now (MR-07781-F), AMC, with seniority for pay and promotion wef 10-04-1998. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 25-03-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Mamta Acharya (MS-13818-N) (MR-07784-P), AMC, with seniority for pay and promotion wef 19-06-1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 31-03-2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Rajneesh Kumar Bharat (MS-13780-P) (MR-07793-W), AMC, with seniority for pay and promotion wef 01-02-1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 23-12-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 20-02-2002 and to grant him permanent

commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt (On Prob)

Divaspathi Salimath (MS-13322-L) (MR-07789-N), AMC, with seniority for pay and promotion wef 06-10-1997. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 14-11-1998 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

K. B. N. S. DOD  
Brigadier  
Dy. DGAFMS (P)

ARMY BRANCH

No. 118, dated 22 Jan 2003.—The President is pleased to grant premature retirement wef date shown against each to the following officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Name, Rank and MR No. & Date of SOS

Col SV Soman (MR-2790), 13-07-2001 (AN).

Col GL Sachdev (MR-3483), 24-07-2002 (AN).

Lt Col HK Rangan (MR-3585), 20-05-2002 (AN).

Lt Col KM Harikrishnan (MR-3675), 06-05-2002 (AN).

Lt Col AK Datta (MR-3676), 29-07-2002 (AN).

Lt Col S Datta (MR-3732), 17-06-2002 (AN).

Lt Col NR Rajan (MR-3740), 16-03-2002 (AN).

Lt Col Rakesh Puri (MR-4830), 11-03-2002 (AN).

K. B. N. S. DOD  
Brigadier  
Dy. DGAFMS (P)

No. 119, dated 22 Jan 2003.—The President is pleased to release the undermentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with SAI 3/98, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or upto the age of 40 years whichever is earlier :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Lt GMK Reddy (SS-36757), Arty, 20-09-01.

Lt Mohammed Fiesel Qureshi (SS-35593), ASC, 05-04-99.

Lt MS Sahrawat (SS-36795), Arty, 23-09-01.

Lt SV Jadhav (SS-36343), AC, 01-10-01.

Lt Promod Chandra Joshi (SS-36793), Arty, 24-08-01.

Lt Saa Rizvi (SS-36862), Inf, 21-09-01.

Lt EKP Prasad (SS-36814), Engr, 21-09-01.

Lt GS Brar (SS-36859), Arty, 21-09-01.

Lt Venkatesh B (SS-36837), ASC, 21-09-01.

Lt Issac Joseph (SS-36252), Inf, 21-10-01.

Lt Johnson J (SS-36852), EME, 21-09-01.

Lt Vinod Kumar (SS-36581), Arty, 11-08-01.  
 Lt Ashwani Saini (SS-36874), Inf, 04-10-01.  
 Lt KS Suresh Kumar (SS-36279), Inf, 08-11-01.  
 Lt Nishat Chida (SS-36032), Inf, 29-10-01.  
 Lt GN Tiwari (SS-35516), Inf, 25-08-01.  
 Lt MN Jha (SS-36661), ASC, 06-07-01.  
 Lt Dhiraj Kumar (SS-36316), Ad Arty, 10-04-01.  
 Lt Vijay Kulhari (SS-36594), Inf, 25-04-01.  
 Lt AS Manohar (SS-36101), Engrs, 22-04-02.  
 Lt Caleb Thangadurai (SS-36096), Inf, 25-04-01.  
 Lt K Mathi (SS-36701), AC, 06-04-01.  
 Lt Sameer Sharma (SS-36689), M/Inf, 06-04-91.  
 Lt AR Satish (SS-36671), Inf, 06-04-01.  
 Lt Vikram Thakur (SS-36429), Inf, 21-10-01.  
 Lt Balaram Goswami (SS-36583), Arty, 06-04-01.  
 Lt Sukhwant Singh (SS-36759), Inf, 21-09-01.  
 Lt Sajit Sankar (SS 36611), Inf, 09-03-01.  
 Lt Anil Verma (SS-36638), Arty, 06-04-01.  
 Lt Nishith Trivedi (SS-36645), Arty, 06-04-01.  
 Lt Rajesh Gulia (SS-36024), Inf, 01-03-01.  
 Lt Gaurav Chowdhry (SS-35399), Arty, 01-05-01.  
 Lt KC Tripathi (SS-36803), Inf, 24-08-01.  
 Lt Vijay Prakash Nayudu (SS-36282), Arty, 11-03-00.  
 Lt BS Shrikant (SS-36134), Inf, 13-09-00.  
 Lt BC Giri (SS-36448), Inf, 19-01-01.  
 Lt Anil Vaid (SS-36747), Inf, 21-09-01.  
 Lt PN William Thangaraj (SS-35699), EME, 17-01-99.  
 Lt Amit Balihar (SS-35868), Inf, 31-5-99.  
 Lt Shailendra Nath (SS-36697), Inf, 6-4-01.  
 Lt SK Gulati (SS-35195), Arty, 28-10-97.  
 Lt Rajesh Nayak (SS-36655) Inf, 5-6-01.

Lt Sandeep Chauhan (SS-36126), AD Arty, 1-2-01  
 Lt Robin George (SS-36641), Arty, 6-4-01.  
 Lt Sharad Gautam (SS-36442), AC, 12-6-01.

AKS CHAUHAN, Col  
 Col MS

No. 120, dated 21st Jan 03.—The undermentioned officer awarded the following punishment by the SGCM,

#### REGULAR ARMY

Permanent Commission

44649 Maj Tarun Tewari, Inf

- (a) To forfeit one year past service for the purpose of promotion and
- (b) To be severely reprimanded.

—04 Jan 2002.

The undermentioned officer awarded the following punishment by the GCM.

#### REGULAR ARMY

Permanent Commission

41513 Maj Vinay Kumar Bihari, ADA

- (a) To forfeit four years past service for the purpose of pension and
- (b) To be severely reprimanded.

—23 Jul 2001.

IC-55049 Capt Manish Srivastava, EME

- (a) To be dismissed from the service—27 Aug. 2001.

The undermentioned officer awarded the following punishment by the Cdr 373 (I) Arty Bde.

#### REGULAR ARMY

Permanent Commission

SI-4186 Capt PV Pillai, SLQM

- (a) To forfeit twelve months service for the purpose of promotion—27 Jan 2002.

KS VERMA, Jt. Dir  
 MS 8C.